

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

सेवा में,  
सदस्य  
प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

### योग्य राय

हमने प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 का तुलन पत्रक, लाभ और हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं। यह नीचे दिए गए योग्य राय पैराग्राफ 1 (ए), 1 (बी) और 2 के आधार पर प्रकट किए गए मामले के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। ये सिद्धांत 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और उसके नकदी प्रवाह के हैं।

### योग्य राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उत्तरदायित्वों के खंड में आगे वर्णित हैं। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्डेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं। साथ ही, हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

1. (ए) व्यापार प्राप्त शीर्षक के अंतर्गत आने वाली शेष राशि लंबे समय से पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन के लिए लंबित है। पांच वर्षों तक की अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्त (संबंधित अग्रिमों का शुद्ध, बिना बिल और बकाया बिक्री का) कुल 3,108.51 लाख रुपये, 225.26 लाख रुपये के संदिग्ध ऋण के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। संदिग्ध ऋणों के लिए मौजूदा प्रावधान की पर्याप्तता पुष्टि, समाधान, परिणामी समायोजन, संभावनाओं और बकाया राशि की वसूली के लिए किए जा रहे/किए जाने वाले प्रयासों और परियोजनाओं के अंतिम समापन और बकाया राशि के निपटान के अंतिम परिणाम पर निर्भर है।

(बी) व्यापार देय, सुरक्षा जमा इत्यादि जैसी देनदारियों से संबंधित कुछ पुराने शेष, आइटम-वार विश्लेषण के अधीन हैं, जो संबंधित प्रति शेष और परिणामी समायोजन से जुड़े हुए हैं।

To  
The Members of  
PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED

### Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31<sup>st</sup> March 2023, the statement of Profit and Loss, the statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required except for the effect/possible effects of the matter disclosed in the basis for qualified opinion paragraphs 1(a), 1(b) and 2 stated below, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31<sup>st</sup> March, 2023, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

### Basis for Qualified Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

1. (a) Balances appearing under the head Trade Receivables are pending confirmation, reconciliation and consequential adjustments, since long. Trade Receivables (net of related advances, unbilled and sales not due) outstanding for a period up to five years aggregating to ₹ 3,108.51 lakh are covered by provision for doubtful debts amounting to ₹ 225.26 lakh. The adequacy of the existing provision for doubtful debts is dependent on the confirmation, reconciliation, consequential adjustments, prospects and the efforts being made/to be made for realization of the dues and ultimate result of the final closure of the projects and settlement of dues.

(b) Certain old balances relating to Liabilities like Trade Payable, Security Deposit etc., are subject to item wise analysis, linking with related contra balances and consequential adjustments.

- सिंदरी इकाई में कैटलिस्ट और अन्य प्रभागों के स्टॉक और भंडार की सूची का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (गैर-परिचालन के बाद से) 12.51 लाख रुपये अनुमानित किया गया है। (529.15 लाख रुपये के प्रावधान का शुद्ध) जो निपटान के परिणामस्वरूप होने वाली अंतिम हानि के निर्धारण के अधीन है जो अभी भी लंबित है।
- इसमें शामिल अनिश्चितताओं को देखते हुए, बिंदु संख्या 1 और 2 का कंपनी के खातों के विवरण पर अंतिम प्रभाव इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है।

### प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

- Net realisable value of Inventory of stock and stores of Catalyst and other Divisions (since non-operational) at Sindri Unit has been estimated at ₹ 12.51 Lakh (net of provision of ₹ 529.15 Lakh) is subject to determination of ultimate loss resulting on disposal of the same, which still remains pending.
- In view of the uncertainties involved, the ultimate effect of point nos. 1 and 2 on the statement of accounts of the Company is not ascertainable at this stage.

### Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला Key Audit Matter	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया Auditor's Response
<p>इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी अनुबंधों के पूरा होने के प्रतिशत पर राजस्व मान्यता:</p> <p>कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य रूप से डिजाइन इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेवाओं में संलग्न है, जिसमें अनुबंध संबंधी शर्तों के अनुसार हासिल किए गए मील के पत्थर के आधार पर किए गए चालान के अनुसार राजस्व की पहचान की जाती है। इसके अलावा, अर्जित आय की गणना संबंधित परियोजनाओं की भौतिक प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है, अपवादों के साथ, प्रगति में अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या: B.1.2 में प्रदान किया गया है।</p> <p>Revenue recognition on percentage of completion of Engineering and Consultancy Contracts:</p> <p>The Company inter alia engages primarily in Design Engineering and Project Management Consultancy Services wherein revenue is recognized as per invoices raised based on milestones achieved in accordance with contractual stipulations. In addition, income accrued is worked out on the basis of percentage of completion as per technical assessment of physical progress of the respective projects, with exceptions, provided in the significant accounting policy no:B.1.2 for Contract in progress.</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्व और संबंधित अनुबंध परिसंपत्तियों की रिकॉर्डिंग और गणना के लिए कंपनी द्वारा कार्यान्वित प्रणालियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना;</li> <li>उस वातावरण का आकलन करना जिसमें व्यवसाय प्रणालियाँ संचालित होती हैं और मान्यता प्राप्त राजस्व की गणना पर सिस्टम नियंत्रण का परीक्षण करना;</li> <li>यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर अनुबंध मूल्य से संबंधित जांच का परीक्षण, अनुबंध के पूरा होने के भौतिक प्रतिशत का इंजीनियरिंग मूल्यांकन और आय के संचय को पूरा करने के लिए किए गए बिलिंग की सीमा।</li> </ul> <p>Our audit procedures included the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obtaining an understanding of the systems, processes and controls implemented by the company for recording and computing revenue and the associated contract assets;</li> <li>Assessing the environment in which the business systems operate and tested system controls over computation of revenue recognized;</li> <li>Testing on a random sampling basis the checks relating to the Contract value, engineering assessment of physical percentage of completion of contract and the extent of billing done to work out the accrual of income.</li> </ul>

### वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

### Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी हमारे लेखापरीक्षण के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों या हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

### वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एएस) सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह के अनुसार ऐसा किया जाता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त होते हैं, चाहे यह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू मानकों के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प का इरादा नहीं रखता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

### Responsibilities of Management and those charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards (AS) specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,

यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन भी करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के प्रचलित आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू मानकों को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और यह देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते

individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of

हैं, और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी प्रदान करते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामले से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक ए", लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।
2. कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अपनी रिपोर्ट के "अनुलग्नक बी" को अधिनियम की धारा 143(5), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संदर्भ में संलग्न करते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - ए) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
  - बी) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं।
  - सी) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्रक, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
  - डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों (एएस) का अनुपालन करते हैं।

our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matter communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonable be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

### Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. On the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we enclose "Annexure B" of our report, in terms of section 143(5) of the Act, on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143 (3) of the Act, based on our audit, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
  - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
  - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
  - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards (AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

- इ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते अधिसूचना संख्या: जी.एस. आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015; के अनुसार, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) के प्रावधान और निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
- एफ) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- जी) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
- कंपनी का ऐसा कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
  - कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।
  - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv. (ए) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से), या इकाई(ओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं। यह इस समझ के साथ किया गया था, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरह से उधार देगा या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना;
- (बी) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। यह इस समझ के साथ किया गया था, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरह से उधार देगी या निवेश करेगी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें; और
- e) Being a Government company, pursuant to the Notification No: G.S.R. 463(E) dated 5<sup>th</sup> June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India; provision of sub-section (2) of section 164 of the Act, regarding disqualification of the directors and provisions of section 197 of the act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company.
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.
  - The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
  - There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
- iv. (a) The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
- (b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

- (सी) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किए गए किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल हैं।
- (डी) (i) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लाभांश के रूप में 324.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
- (ii) जैसा कि कंपनी के वित्तीय विवरण के नोट 2.1 (बी) में कहा गया है, कंपनी के निदेशकों ने वर्ष के लिए 358.00 लाख रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार है, यह लाभांश की घोषणा के लिए लागू है।
- (इ) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- (c) Based on such audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material mis-statement.
- (d) (i) Dividend amounting to ₹324.00 Lakh has been paid as dividend of FY 2021-22, during the year, by the company.
- (ii) As stated in note 2.1 (b) to the company's financial statement, directors of the Company have proposed dividend of ₹358.00 Lakh for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend declared is in accordance with section 123 of the Companies Act, 2013 to the extent it is applicable for declaration of dividend.
- (e) Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from 1<sup>st</sup> April, 2023. Accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2023.

वास्ते विनय कुमार एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
आईसीएआई एफआर नंबर 000719C

ह/-  
(विनय कुमार अग्रवाल)  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या 013795  
UDIN: 23013795BGYJTN9355

For Vinay Kumar & Co  
Chartered Accountants  
ICAI FR No. 000719C

sd/-  
(Vinay Kumar Agrawal)  
Partner  
Membership No. 013795  
UDIN: 23013795BGYJTN9355

दिनांक: 6 सितंबर 2023  
स्थान: नोएडा

Date: 6<sup>th</sup> September 2023  
Place: Noida

## अनुबंध 'A'

## Annexure 'A'

“अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं” पर सम दिनांक की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुबंध।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. (ए) (A) कंपनी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है;
    - (B) कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड रख रही है;
  - (बी) जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है; ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं;
  - (सी) वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं;
  - (डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;
  - (इ) जैसा कि हमें बताया गया है, बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- ii. (ए) कंपनी मुख्य रूप से एक सेवा कंपनी है और इसकी प्रमुख गतिविधियाँ उर्वरक, तेल और गैस उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं पर परामर्श देना हैं। सिंदरी इकाई में इसके उत्प्रेरक, इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास प्रभागों (गैर-परिचालन के बाद से) में स्टॉक और भंडार की सूची रखी जाती है। प्रबंधन द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। प्रत्येक श्रेणी की इन्वेंट्री के लिए खातों और भौतिक रूप से सत्यापित इन्वेंट्री के बीच कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की विसंगति नहीं देखी गई। कंपनी के विशेष अधिकारियों सहित एक समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सिंदरी इकाइयों में इन्वेंट्री का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य 31 मार्च, 2023 को 12.51 लाख रुपये (529.15 लाख रुपये के प्रावधान का शुद्ध) का आकलन किया गया है।
    - (बी) कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ नहीं उठाया है। इसलिए आदेश के खंड (ii) (बी) की आवश्यकता कंपनी के मामले में लागू नहीं होती।
  - iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए, पैराग्राफ 3 के खंड (iii) (ए-ए, बी), (iii) (बी), (iii) (सी), (iii) (डी), (iii) (ई) और (iii) (एफ) आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।

The Annexure referred to in paragraph 1 of Our Independent Auditor Report of even date, on “Other Legal and Regulatory Requirements”.

We further report that:

- i. (a)(A) The Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;
    - (B) The Company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets;
  - (b) As explained to us, Property, Plant and Equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals; no material discrepancies were noticed on such verification;
  - (c) The title deeds of all the immovable properties (other than properties where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the Company;
  - (d) The company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year;
  - (e) As explained to us, no proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.
- ii. (a)The company is mainly a service Company and major activities are from consultancy on projects related to fertilizer, oil and gas industries. Inventory of stock and stores is maintained at its Catalyst, Engineering and R & D divisions (since non-operational) at Sindri Unit. The physical verification of inventory has been conducted by the management at the end of the relevant financial year. Discrepancy of 10% or more in the aggregate for each class of inventory, between the books and physically verified inventory were not noticed. The estimated realisable value of the inventory at Sindri Units has been assessed on 31<sup>st</sup> March, 2023 at ₹12.51 Lakh (net of provision of ₹529.15 Lakh) made till financial year 2022-23 by a committee including specialized officers of the company.
    - (b) The company has not availed any working capital limit from any bank or financial institution. Therefore requirement of clause (ii) (b) of the order are not applicable in the case of the company.
  - iii. During the year the company has not made investments in, not provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Therefore, clauses (iii) (a-A, B), (iii) (b), (iii) (c), (iii) (d), (iii) (e) and (iii) (f) of the Paragraph 3 of the order are not applicable to the Company.



- iv. ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के अर्थ के भीतर कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- vi. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- vii. (ए) हमें उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, उपयुक्त प्राधिकारियों को मूल्य वर्धित कर, उपकर और कोई अन्य वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई वैधानिक बकाया नहीं था।
- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप-खंड (ए) में उल्लिखित कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है जिसे निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है:
- iv. In respect of loans, investments, guarantees, and securities, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.
- v. According to the information and explanations given to us and based on our audit procedure, the Company has not accepted any deposits within the meaning of sections 73 to 76 of the Act or any other relevant provision of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules 2014.
- vi. As per information & explanations given by the management, maintenance of cost records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act.
- vii. (a) According to the records made available to us, Company is regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us there were no outstanding statutory dues as on 31<sup>st</sup> of March, 2023 for a period of more than six months from the date they became payable.
- (b) According to the information and explanations given to us, there is no statutory dues referred to in sub-clause (a) that have not been deposited on account of any dispute except following:

अधिनियम का नाम Name of the Statute	देय राशि की प्रकृति Nature of the Dues	राशि लाख में Amount In Lakh	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है Period to which the amount relates	फोरम जहां विवाद लंबित है Forum where Dispute is pending	यदि कोई टिप्पणी हो Remarks, if Any
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales tax	416.11	1991-92 से 1998-99 1991-92 to 1998-99	सहायक आयुक्त वाणिज्य कर धनबाद Assistant Commissioner of Commercial tax Dhanbad	नवीनतम अपडेट उपलब्ध नहीं है Latest updates not available

- viii. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खाते की किताबों में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निधारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सॉरेंडर या खुलासा नहीं किया गया है।
- ix. (ए) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (बी) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है;
- (सी) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- viii. According to the information and explanations given by the management, no transactions not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.
- ix. (a) In our opinion and according to the information and explanations given by the management, we are of the opinion that the Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.
- (b) According to the information and explanations given by the management, the Company is not declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender;
- (c) In our opinion and according to the information and explanations given by the management, the Company has not obtained funds by way of term loans during the year and hence reporting under clause 3 (ix)(c) of order is not applicable.

- (डी) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान अल्पावधि में कोई धन नहीं जुटाया गया है जिसका उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था।
- (इ) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
- (एफ) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है।
- x. (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xi. (ए) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में सामान्यतः स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किया गया और यह पाया गया कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है;
- (बी) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लेखापरीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में दायर नहीं की गई है;
- (सी) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई विहसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. कंपनी, निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के तहत आने वाले संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लेनदेन नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के खंड 3(xiii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xiv. (ए) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी की नोएडा और वडोदरा इकाइयों में एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
- (बी) उपलब्ध आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर हमने अपनी वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विचार किया है।
- (d) In our opinion and according to the information and explanations given by the management, no funds have been raised on short term which could have been utilized for long term purposes, during the year.
- (e) In our opinion and according to the information and explanations given by the management, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures,
- (f) In our opinion and according to the information and explanations given by the management, the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.
- x. (a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year hence reporting under clause 3(x) (a) of the order is not applicable.
- (b) The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully, partially or optionally convertible) during the year and hence reporting under clause 3(x) (b) of the order is not applicable.
- xi. (a) During the course of our examination of the books and records of the company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us by the management, no fraud by the Company or any fraud on the Company has been noticed or reported during the year;
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government;
- (c) According to the information and explanations given to us by the management, no whistle-blower complaints have been received by the Company during the year.
- xii. The Company is not a Nidhi Company. Therefore, clause 3(xii) of the order is not applicable to the company.
- xiii. According to the information and explanations given to us, no transactions with related parties covered under section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 has been done by the Company during the year. Therefore the reporting under clause 3(xiii) of the order is not applicable.
- xiv. (a) In our opinion and based on our examination, the Company has an internal audit system at Noida and Vadodara units of the Company which is commensurate with the size and nature of its business.
- (b) The internal audit reports made available have been considered by us in our statutory audit report.

- xv. वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने निदेशकों या उसके निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते।
- xvi. (ए) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- (बी) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की है।
- (सी) हमारी राय और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।
- (डी) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।
- xvii. हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।
- xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों के इस्तीफे का कोई मामला सामने नहीं आया है।
- xix. प्रबंधन और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं से प्राप्त जानकारी और वित्तीय अनुपात के आधार पर: वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की उम्र बढ़ने और अपेक्षित तिथियां, वित्तीय विवरण के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजनाओं के बारे में लेखापरीक्षक को जानकारी होने के कारण, हमारी राय है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्रक की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब वे तुलन पत्रक की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्रक की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।
- xx. (ए) हमारी जांच और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर चालू परियोजनाओं के अलावा कोई अन्य परियोजना नहीं है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान की आवश्यकताओं के अनुसार शून्य निधि को निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना बाकी है।
- (बी) हमारी जांच और चल रही परियोजनाओं के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, पीएम केयर फंड में प्रेषण करके 25 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। शेष 33.84 लाख रुपये
- xv. On the basis of the information and explanations given to us during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected its directors and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company.
- xvi. (a) In our Opinion and based on our examination, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).
- (b) In our Opinion and based on our examination, the Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities without a valid Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934,
- (c) Our opinion and based on our examination, the Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India.
- (d) According to the information and explanations given by the management, the Company does not have any CIC as part of the Group.
- xvii. Based on our examination, the Company has not incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.
- xviii. There has been no case of resignation of the statutory auditors during the year.
- xix. On the information obtained from the management and audit procedures performed and on the basis of the financial ratios, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the plans of the Board of Directors and the management we are of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report that Company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- xx. (a) Based on our examination and explanations given to us there is no other than ongoing projects and therefore NIL fund remains to be transferred to the specified fund as per requirements of second proviso to sub section (5) of section 135 of the Companies Act, 2013.
- (b) Based on our examination and information and explanations given to us in respect of ongoing projects a sum of ₹ 25.00 Lakh has been spent by making remittance to PM CARES Fund and remaining amount of ₹ 33.84 lakh

की राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में निर्दिष्ट खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

has been transferred to the specified account in compliance with the provision of sub section (6) of section 135 of the Companies Act, 2013.

xxi. कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xxix) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xxi. The Company is not required to prepare a consolidated financial statement and hence reporting under clause 3(xxix) of the order is not applicable.

वास्ते विनय कुमार एंड कंपनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
आईसीएआई एफआर नंबर 000719 C

For Vinay Kumar & Co  
Chartered Accountants  
ICAI FR No. 000719C

ह/-  
(विनय कुमार अग्रवाल)  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या 013795  
UDIN: 23013795BGYJTN9355

sd/-  
(Vinay Kumar Agrawal)  
Partner  
Membership No. 013795  
UDIN: 23013795BGYJTN9355

तिथि: 06 सितंबर 2023  
स्थान: नोएडा

Date: 06<sup>th</sup> September 2023  
Place: NOIDA

“कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश” पर हमारी सम दिनांक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित अनुबंध

The Annexure referred to in paragraph 2 of Our Independent Auditor Report of even date on “Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013”

क्रम संख्या S. No.	निर्देश Directions	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षक का जवाब Auditor's reply on the action taken on the directions
1.	<p>क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।</p> <p>Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.</p>	<p>कंपनी के खातों की पुस्तकों के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी लेनदेन SAP-IT सिस्टम में संसाधित किए जा रहे हैं। गैर-आवर्ती व्यय को छोड़कर, वर्ष 2022-23 के लिए एएमसी और लाइसेंस शुल्क के रूप में वित्तीय निहितार्थ 38.19 लाख रुपये है।</p> <p>On the basis of the Books of accounts of the Company and according to information and explanations given to us, all the transactions are being processed in SAP-IT systems. The financial implication in the form AMC and License fees amounting to ₹ 38.19 lakh for the year 2022-23 excluding non-recurring expenditure.</p>
2.	<p>क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।</p> <p>Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).</p>	<p>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन नहीं किया है या ऋणदाता द्वारा उसे चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को दिए गए किसी भी ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में नहीं डाला है।</p> <p>According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records the company has not restructured any existing loan or waiver/write off of any debts/loans/interest etc. made by the lender to the company due to the company's inability to repay the same.</p>
3.	<p>क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p> <p>Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.</p>	<p>कंपनी के खाते की पुस्तकों और रिकॉर्ड के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने नियमों और शर्तों के अनुसार केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य सभी निधियों का उचित हिसाब/उपयोग किया है।</p> <p>On the basis of Books of account and records of the Company and according to information and explanations given to us, the Company has properly accounted for/ utilized all funds received /receivable for specific schemes from Central/State agencies as per its terms and conditions.</p>

## अनुबंध 'C'

## Annexure 'C'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट पर सम दिनांक की हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 (एफ) में उल्लिखित अनुबंध"

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ 31 मार्च, 2023 तक प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है।

### राय

हमारी राय में, निम्नलिखित बिंदुओं को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था।

- व्यापार प्राप्तियों के पुराने बकाया और संबंधित परियोजनाओं के साथ अग्रिमों को जोड़ने, विशेष रूप से 3 वर्ष से अधिक पुराने बकाए के लिए बेहतर निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। इसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यह आवश्यक है।

### लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होने वाली सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं

The Annexure referred to in paragraph 3(f) of Our Independent Auditor Report of even date on "Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")"

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED** ("the Company") as of 31<sup>st</sup> March, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

### Opinion

In our opinion, except on the following points, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31<sup>st</sup> March, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

- Old outstanding dues of trade receivables and linking of advances with the respective projects, particularly for dues older than 3 years need better monitoring and control.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit

और, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;
2. उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और
3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण अपर्याप्त हो सकता है।

वास्ते विनय कुमार एंड कंपनी के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
आईसीएआई एफआर नंबर 000719 C

ह/-  
(विनय कुमार अग्रवाल)  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या 013795  
UDIN: 23013795BGYJTN9355

स्थान: नोएडा  
दिनांक: 06 सितंबर 2023

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

For Vinay Kumar & Co  
Chartered Accountants  
ICAI FR No. 000719C

sd/-  
(Vinay Kumar Agrawal)  
Partner  
Membership No. 013795  
UDIN: 23013795BGYJTN9355

Place: NOIDA  
Date: 06<sup>th</sup> September 2023



## प्रदर्शन एक नज़र में PERFORMANCE AT A GLANCE

वित्तीय विशिष्टताएं

Financial Highlights:-

विवरण	Particulars	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
परिचालन से राजस्व (शुद्ध)	Revenue from Operation (Net)	98.60	115.04	121.09	133.01	116.50	68.20	45.95	63.63	46.18	58.34	67.72
अन्य आय	Other Income	8.61	7.04	8.59	9.15	15.00	9.66	11.79	8.43	11.37	14.27	15.86
कुल आय	TOTAL INCOME	107.21	122.08	129.68	142.16	131.50	77.86	57.74	72.06	57.55	72.61	83.58
ल्याहस/हानि, ब्याज और कर से पहले कमाई (पीबीडीआईटी)	Earning before depreciation/Impairment, Interest and Tax (PBDIT)	6.85	17.06	28.64	48.63	39.54	2.60	(7.76)	(3.62)	(6.90)	4.65	17.90
ब्याज	Interest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास/हानि	Depreciation/Impairment	2.26	2.22	2.39	2.78	2.32	1.99	2.19	2.78	3.58	2.71	2.57
कर पूर्व लाभ	Profit before Tax	4.59	14.84	26.25	45.85	37.22	0.61	(9.95)	(6.40)	(10.48)	1.94	15.33
सकल अचल संपत्ति	Profit after Tax	3.58	10.81	19.07	31.83	30.36	2.69	(10.58)	(8.92)	(5.86)	1.32	10.71
सकल अचल संपत्ति	Gross Fixed Assets	53.86	51.36	50.99	50.16	47.71	69.55	68.91	69.09	68.39	67.95	63.25
शुद्ध नियत संपत्तियां	Net Fixed Assets	14.71	14.02	15.81	16.65	16.25	14.99	16.29	17.28	19.06	23.32	21.23
चालू एवं गैर-वर्तमान देदारियां, ऋण एवं अग्रिम	Current & Non Current Assets, Loans and Advances	200.09	236.04	227.29	205.69	173.11	134.99	120.41	135.50	136.71	151.11	158.28
वर्तमान और गैर-वर्तमान देदारियां और प्रावधान	Current & Non-Current Liabilities and Provisions	53.82	88.21	91.36	71.96	71.65	44.96	32.29	38.12	32.48	39.54	43.76
कार्यशील पूंजी	Working Capital	144.52	122.21	135.93	133.73	101.46	90.03	88.12	97.38	104.23	111.57	114.52
निवल मूल्य	Networth	167.74	167.40	157.54	154.950	123.12	110.39	107.70	118.28	129.42	136.41	137.11
नियोजित पूंजी	Capital Employed	174.51	172.95	151.72	150.390	118.59	105.02	104.41	114.67	123.28	134.89	135.76
उत्पादन (उत्प्रेरक) (एमटी)*	Production (Catalyst) (MT)*	-	-	-	-	138	97	4	127	82	212	185
बिक्री (उत्प्रेरक) (एमटी)*	Sale (Catalyst) (MT)*	-	-	-	-	159	96	10	118	61	206	175
लाभांश	Dividend	3.58	3.24	7.88	9.55	11.80	-	-	1.85	-	1.73	3.81

महत्वपूर्ण संकेतक

Key Indicators

विवरण	Particulars	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
वर्तमान अनुपात	Current Ratio	5.15:1	2.79:1	2.49:1	2.86:1	2.42:1	3.00:1	3.73:1	3.55:1	4.21:1	3.82:1	3.62:1
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%)	Return on Capital Employed (%)	2.63	8.58	12.57	21.16	25.60	2.56	-	-	-	0.98	7.89
लाभांश (%)	Return on Equity (%)	20.71	62.48	110.23	183.99	175.49	15.55	-	-	-	7.63	61.91
प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹.)	Earning Per Share (EPS) (Rs.)	207.05	624.84	1,103	1,840	1,755	155	-	-	-	76	619
पीबीडीआईटी/कारोबार (%)	PBDIT/Turnover (%)	6.39	13.97	22.09	34.21	30.07	3.34	-	-	-	6.40	21.42
नेटवर्थ पर वापसी (%)	Return on Networth (%)	2.13	6.46	12.10	20.54	24.66	2.44	-	-	-	0.97	7.81

\* डीओएफ के आदेश (संदर्भ नोट संख्या 35) के अनुपालन में कैटलिस्ट प्लॉट 30.04.2019 को एफसीआईएल को सौंप दिया गया था।

\* The Catalyst Plant was handed over to FCIL on 30.04.2019 in compliance of DoF's Order (Ref Note No.35)

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड  
31 मार्च, 2023 तक तुलन पत्र

PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED  
Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2023

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	Particulars	नोट संख्या Note No.	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31/03/2023 के अंत तक के आंकड़े Figures as at the end of Current Reporting Period 31.03.2023	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31/03/2022 के अंत तक के आंकड़े Figures as at the end of Previous Reporting Period 31.03.2022
<b>I. इक्विटी और देयताएं</b>	<b>I. EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1 अंशधारी निधि</b>	<b>1 Shareholders' funds</b>			
(ए) शेयर पूंजी	(a) Share Capital	2	1,729.85	1,729.85
(बी) आरक्षित और अधिशेष	(b) Reserves and Surplus	3	15,044.53	15,010.36
<b>2 आवेदन राशि लंबित आवंटन साझा करें</b>	<b>2 Share Application Money Pending Allotment</b>		-	-
<b>3 गैर वर्तमान देनदारियां</b>	<b>3 Non-current Liabilities</b>			
(ए) दीर्घकालिक उधार	(a) Long Term Borrowings	4	-	-
(बी) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	(b) Deferred Tax Liabilities (Net)	5	-	-
(सी) अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ	(c) Other Long Term Liabilities	6	114.75	139.10
(डी) दीर्घकालिक प्रावधान	(d) Long Term Provisions	7	1,789.18	1,855.59
<b>4 वर्तमान देनदारियां</b>	<b>4 Current Liabilities</b>			
(ए) लघु अवधि की उधारी	(a) Short Term Borrowings	8	-	-
(बी) व्यापार देनदारियां:-	(b) Trade Payables:-	9		
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	(i) MICRO and Small Enterprises		155.63	169.76
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा	(ii) Other than MICRO and Small Enterprises		515.69	789.86
(सी) अन्य वर्तमान देनदारियां	(c) Other Current Liabilities	10	2,212.75	2,488.98
(डी) अल्पावधि प्रावधान	(d) Short Term Provisions	11	594.71	3,377.70
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>22,157.09</b>	<b>25,561.20</b>
<b>II. परिसंपत्तियां</b>	<b>II. ASSETS</b>			
<b>1 गैर तात्कालिक परिसंपत्तियां</b>	<b>1 Non-current Assets</b>			
(ए) परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	(a) Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
(i) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	(i) Property, Plant and Equipment	12	1,432.71	1,376.55
(ii) अमूर्त संपत्ति	(ii) Intangible Assets	12	38.39	25.16
(iii) पूंजीगत कार्य - प्रगति पर	(iii) Capital Work-in-Progress	12A	-	-
(iv) विकासाधीन अमूर्त संपत्ति	(iv) Intangible assets under development	12B	-	-
(बी) गैर-चालू निवेश	(b) Non-current Investments	13	-	-
(सी) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	(c) Deferred Tax Assets (net)	5	676.79	555.18
(डी) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	(d) Long Term Loans and Advances	14	-	-
(इ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियां	(e) Other non-current Assets	15	2,078.23	4,556.85
<b>2 वर्तमान परिसंपत्तियां</b>	<b>2 Current Assets</b>			
(ए) वर्तमान निवेश	(a) Current Investments	16	-	-
(बी) वस्तुसूची	(b) Inventories	17	12.51	111.06
(सी) व्यापार प्राप्तियां	(c) Trade Receivables	18	7,838.60	7,824.66
(डी) नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष	(d) Cash & Cash equivalents and Other Bank Balances	19	9,347.70	10,327.64
(इ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	(e) Short Term Loans and Advances	20	130.43	184.14
(एफ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(f) Other Current Assets	21	601.73	599.96
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>22,157.09</b>	<b>25,561.20</b>
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies	<b>1 to 55</b>		
संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं	The accompanying notes are an integral part of these financial statements			

निदेशक मंडल के वास्ते

ह/-  
अर्पिता बसु रॉय  
कंपनी सचिव  
M. No.: A28972

ह/-  
नज़हत जे शेख  
निदेशक (वित्त)  
DIN: 07348075

ह/-  
अनिता सी. मेथ्राम  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
DIN: 09781436

sd/-  
Arpita Basu Roy  
Company Secretary  
M. No.: A28972

For and on behalf of the Board of Directors

sd/-  
Nazhat J. Shaikh  
Director (Finance)  
DIN: 07348075

sd/-  
Aneeta C. Meshram  
Chairperson & Managing Director  
DIN: 09781436

हमारी रिपोर्ट की अवधि में सम दिनांक संलग्न है  
विनय कुमार एंड कंपनी वास्ते  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या: 000719सी  
ह/-  
विनय कुमार अग्रवाल  
पार्टनर  
M. No.: 013795

In term of our report of even date attached  
For Vinay Kumar & Co.  
Chartered Accountants  
Firm Regn No.: 000719C  
sd/-  
Vinay Kumar Agrawal  
Partner  
M.No.: 013795

स्थान: नोएडा  
तिथि: 06.09.2023

Place: Noida  
Date: 06.09.2023

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड  
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED  
Statement of Profit and Loss for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	Particulars	नोट संख्या Note No.	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 31/03/2023 के अंत तक के आंकड़े Figures as at the end of Current Reporting Period 31/03/2023	पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31/03/2022 के अंत तक के आंकड़े Figures as at the end of Previous Reporting Period 31/03/2022
I. परिचालन से राजस्व (शुद्ध)	I. Revenue from operations (Net)	22	9,860.41	11,504.04
II. अन्य आय	II. Other Income	23	860.66	704.19
III. कुल आय (I + II)	III. Total Income (I + II)		10,721.07	12,208.23
IV. खर्च:	IV. Expenses:			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	Cost of Materials Consumed	24	-	-
सेवाओं की नियुक्ति	Hiring of Services		794.38	996.90
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	Purchases of Stock-in-Trade	25	-	-
तैयार माल, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन	Changes in Inventories of Finished Goods, Work-In-Progress and Stock-In-Trade	26	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	Employee Benefits Expense	27	6,922.45	7,001.41
वित्तीय लागत	Finance Cost	28	-	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	Depreciation and Amortization Expense	29	203.99	222.26
हानि क्षति	Impairment Loss		22.22	-
अन्य व्यय	Other Expenses	30	2,319.28	2,185.45
V. कुल व्यय	V. Total Expenses		10,262.32	10,406.02
VI. विशेष और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-V)	VI. Profit before Exceptional and Extraordinary Items and Tax (III-V)		458.75	1,802.21
VII. असाधारण वस्तुएँ	VII. Exceptional Items	47	-	(317.92)
VIII. असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (VI - VII)	VIII. Profit before Extraordinary Items and Tax (VI - VII)		458.75	1,484.29
IX. असाधारण वस्तुएँ	IX. Extraordinary Items		-	-
X. कर पूर्व लाभ (VIII-IX)	X. Profit before Tax (VIII- IX)		458.75	1,484.29
XI. कर व्यय:	XI. Tax Expenses:			
(1) वर्तमान कर	(1) Current tax		241.63	377.04
(2) पूर्व वर्षों का कर	(2) Earlier Years tax		(19.44)	-
(3) आस्थगित कर	(3) Deferred tax		(121.61)	26.37
XII वर्ष के लिए लाभ (हानि)	XII Profit (Loss) for the Year		358.17	1,080.88
XIII प्रति इक्विटी शेयर आय: (₹1000 के सममूल्य पर)	XIII Earning per Equity Share: (At Par Value of ₹1000)	31		
(1) बेसिक (₹ में)	(1) Basic (in ₹)		207.05	624.84
(2) पतला (₹ में)	(2) Diluted (in ₹)		207.05	624.84

निदेशक मंडल के वास्ते  
ह/-  
अर्पिता बसु रॉय  
कंपनी सचिव  
M. No.: A28972

ह/-  
नज़हत जे शेख  
निदेशक (वित्त)  
DIN: 07348075

ह/-  
अनिता सी. मेश्राम  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
DIN: 09781436

sd/-  
Arpita Basu Roy  
Company Secretary  
M. No.: A28972

For and on behalf of the Board of Directors  
sd/-  
Nazhat J. Shaikh  
Director (Finance)  
DIN: 07348075

sd/-  
Aneeta C. Meshram  
Chairperson & Managing Director  
DIN: 09781436

हमारी रिपोर्ट की अवधि में सम दिनांक संलग्न है  
विनय कुमार एंड कंपनी वास्ते  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या: 000719सी

In term of our report of even date attached  
For Vinay Kumar & Co.  
Chartered Accountants  
Firm Regn No.: 000719C

ह/-  
विनय कुमार अग्रवाल  
पार्टनर  
M. No.: 013795

sd/-  
Vinay Kumar Agrawal  
Partner  
M.No.: 013795

स्थान: नोएडा  
तिथि: 06.09.2023

Place: Noida  
Date: 06.09.2023

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड  
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED  
Cash Flow Statement for the year ended 31<sup>st</sup> March 2023

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March, 2022
<b>A. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह</b>	<b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
करों और असाधारण वस्तुओं से पहले शुद्ध लाभ	Net Profit before Taxes and Extraordinary items	458.75	1484.29
इनके लिए समायोजन:	Adjustments for :		
मूल्यहास एवं परिशोधन (हानि सहित)	Depreciation & Amortisation (incl impairment)	226.21	222.26
ब्याज आय	Interest Income	(523.91)	(556.03)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on sale of fixed assets	(0.35)	(0.22)
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान (अतिरिक्त प्रावधान को वापस लिखा गया)	Loss on Sale of Fixed Assets	0.74	0.36
संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान (वापस लिखे गए अतिरिक्त प्रमाण का योग)	Provision for Doubtful Debts & Advances (net off excess prov.written back)	262.47	184.99
<b>कार्यशील पूंजी समायोजन से पहले परिचालन लाभ</b>	<b>Operating profit before working capital adjustments</b>	<b>423.91</b>	<b>1335.65</b>
Increase(+)/Decrease(-) in Other long term Liabilities and Long term Provision	Increase(+)/Decrease(-) in Other long term Liabilities and Long term Provision	(90.76)	(154.40)
अन्य वर्तमान देदारियों और अल्पकालिक प्रावधान में वृद्धि(+)/कमी(-)	Increase(+)/Decrease(-) in Other Current Liabilities and Short term Provision	(3059.22)	(433.01)
व्यापार देय में वृद्धि(+)/कमी(-)	Increase(+)/Decrease(-) in Trade Payables	(288.30)	272.20
व्यापार प्राप्त्य में वृद्धि(-)/कमी(+)	Increase(-)/Decrease(+) in Trade Receivable	(276.41)	(73.56)
इन्वेंटरी में वृद्धि(-)/कमी(+)	Increase(-)/Decrease(+) in Inventory	98.55	0.00
अल्पावधि ऋण और अग्रिमों में वृद्धि(-)/कमी(+)	Increase(-)/Decrease(+) in Short term Loans & Advances	53.71	9.57
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि(-)/कमी(+)	Increase(-)/Decrease(+) in Other Non Current Asset	2478.62	(1060.85)
अन्य चालू परिसंपत्ति में वृद्धि(-)/कमी(+)	Increase(-)/Decrease(+) in Other Current Asset	30.29	(30.37)
आयकर	Income Tax	(222.19)	(377.04)
<b>परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)</b>	<b>Net Cash Flow from Operating Activities(A)</b>	<b>(851.80)</b>	<b>(511.81)</b>
<b>B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>	<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की खरीद	Purchase of Property plant and equipment and intangible assets	(297.70)	(44.65)
कैपिटल कार्य - प्रगति पर	Capital Work-in-Progress	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	Sale of Property, Plant & Equipment	1.71	0.95
ब्याज आय	Interest Income	491.85	556.86
<b>निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)</b>	<b>Net Cash flow from Investing Activities(B)</b>	<b>195.86</b>	<b>513.16</b>
<b>C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>	<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :</b>		
लाभांश का भुगतान	Payment of Dividend	(324.00)	(95.00)
<b>वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (सी)</b>	<b>Net cash used in Financing Activities(C)</b>	<b>(324.00)</b>	<b>(95.00)</b>
<b>नकदी और नकदी में शुद्ध वृद्धि/(कमी) समकक्ष (A + B + C)</b>	<b>NET INCREASE /(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A + B + C)</b>	<b>(979.94)</b>	<b>(93.65)</b>
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	Cash & Cash equivalents at the beginning of the year	10327.64	10421.29
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(979.94)	(93.65)
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट क्रमांक 1 देखें)	Cash & Cash equivalents at the end of the year (See Note No.1)	9347.70	10327.64

नोट नंबर 1 नकद और नकद समतुल्य में हाथ में नकदी और चालू खातों में बैंकों के पास शेष और जमा खाते में बैंकों के पास शेष शामिल हैं। नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समकक्षों में निम्नलिखित बैलेंस शीट राशियाँ शामिल होती हैं।	NOTE No.1 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and balances with banks in Current Accounts and Balances with banks in Deposits Account. Cash and cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet amounts.	For the year ended 31st March, 2023	For the year ended 31st March, 2022
हाथ में नकदी और चालू खातों में बैंकों के पास शेष (संदर्भ नोट संख्या: 19)	Cash in hand and balances with banks in Current Accounts (Ref Note No.: 19)	156.38	298.28
जमा खाते में बैंकों के पास शेष (संदर्भ नोट संख्या: 19)	Balances with banks in Deposits account (Ref Note No.: 19)	9191.32	10029.36
<b>वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य</b>	<b>Cash &amp; Cash equivalents at the end of the year</b>	<b>9347.70</b>	<b>10327.64</b>

वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्षों में बैंकों के पास जमा राशि ₹ 2618.63 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1585.04 लाख) शामिल है, जो कि बीजी/ओडी के विरुद्ध गिरवी रखे जाने के कारण कंपनी को स्वतंत्र रूप से माफ नहीं की जाती है।

Cash & Cash equivalents at the end of the year include deposit with banks ₹ 2618.63 lakhs (Previous Year ₹1585.04 lakhs) which are not freely remissible to the company because of pledged against BG/OD.

उपरोक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है जैसा कि द इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी "कैश फ्लो स्टेटमेंट्स" पर लेखांकन मानक "एस-3" में निर्धारित किया गया है।

The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in the Accounting Standard "AS-3" on "Cash Flow Statements" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

निदेशक मंडल के वास्ते

ह/-  
अर्पिता बसु रॉय  
कंपनी सचिव  
M. No.: A28972

ह/-  
नजहत जे शेख  
निदेशक (वित्त)  
DIN: 07348075

ह/-  
अनिता सी. मेश्रम  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
DIN: 09781436

For and on behalf of the Board of Directors

sd/-  
Arpita Basu Roy  
Company Secretary  
M. No.: A28972

sd/-  
Nazhat J. Shaikh  
Director (Finance)  
DIN: 07348075

sd/-  
Aneeta C. Meshram  
Chairperson & Managing Director  
DIN: 09781436

हमारी रिपोर्ट की अवधि में हम दिनांक संलग्न है  
विनय कुमार एंड कंपनी वास्ते  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
फर्म पंजीकरण संख्या: 000719सी

In term of our report of even date attached  
For Vinay Kumar & Co.  
Chartered Accountants  
Firm Regn No.: 000719C

ह/-  
विनय कुमार अग्रवाल  
पार्टनर  
M. No.: 013795

sd/-  
Vinay Kumar Agrawal  
Partner  
M.No.: 013795

स्थान: नोएडा  
तिथि: 06.09.2023

Place: Noida  
Date: 06.09.2023

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर नोट्स

## Notes to Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023

### 1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

#### ए. सामान्य

1.1 वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान के नियम 7 के साथ पढ़े जाने पर तैयार किए गए हैं।

#### 1.2 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी, वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों को तुलन पत्रक में प्रस्तुत करती है।

किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब वह:

- ए) सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की उम्मीद है या बेचने या उपभोग करने का इरादा है।
- बी) मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित है, या
- सी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर साकार होने की उम्मीद है, या
- डी) नकद या नकद समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए किसी दायित्व का निपटान करने के लिए इसका आदान-प्रदान या उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देनदारी को तब चालू माना जाता है जब:

- ए) इसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान होने की उम्मीद है।
- बी) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
- सी) इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है, या
- डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

1.3 **परिचालन चक्र:** - सेवाओं की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच के समय के आधार पर, कंपनी का परिचालन चक्र बारह महीने से कम का है। कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को बारह महीने माना है।

### 1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

#### A. General

1.1 The financial statements have been prepared on a going concern basis under the historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles in India and in compliance with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act 2013, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

#### 1.2 Current versus non-current classification

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification.

An asset is treated as current when it is:

- a) Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle.
- b) Held primarily for the purpose of trading, or
- c) Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
- d) Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when:

- a) It is expected to be settled in normal operating cycle.
- b) It is held primarily for the purpose of trading.
- c) It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- d) There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

1.3 **Operating cycle:** - Based on the nature of services and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Operating Cycle of the Company is less than twelve months. The Company has considered its Operating Cycle as twelve months for the purpose of current /non-current classification of assets and liabilities.

## बी. लाभ और हानि का विवरण

### 1. अनुबंधों से आय को निम्नानुसार पहचाना जाता है:

#### 1.1 पूरे हुए और सौंपे गए अनुबंध:

जहां भी आवश्यक हो, सभी ज्ञात/गारंटी देनदारियों को प्रदान करने के बाद, प्रदान किए गए अनुबंध और अतिरिक्त सेवाओं, यदि कोई हो, उसका पूरा मूल्य और पिछले लेखांकन वर्ष तक ली गई आय से कम किया गया।

#### 1.2 प्रगति पर अनुबंध:

##### 1.2.1 कंपनी द्वारा निष्पादित:

### ए. डिजाइन इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएँ

अनुबंध के अनुसार आकस्मिकताओं, वारंटी आदि सहित अधिकतम देनदारियों को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध के अनुसार एक वर्ष से अधिक की निर्धारित पूर्णता अवधि वाली परियोजना की भौतिक प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार प्रतिशत पूर्णता के आधार पर अर्जित आय की गणना की जाती है, उन मामलों को छोड़कर जहां प्रगति 15% से कम है, जिसे अनुबंध कार्य-प्रगति के रूप में लागत पर लिया जाता है। निर्माण पर्यवेक्षण से आय की गणना संचय के आधार पर की जाती है।

### बी. आद्योपांत परियोजनाएँ

- परामर्श शुल्क को 1.2.1(ए) के अनुसार मान्यता दी जाती है, ऐसे मामलों में जहां ऐसी फीस अनुबंध में एक अलग आइटम के रूप में निर्धारित की गई है।
- अन्य मामलों में, अनुबंध के अनुसार आकस्मिकता, वारंटी आदि सहित अधिकतम देनदारियों को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध की अनुमानित कुल लागत के लिए किए गए कार्य पर खर्च की गई लागत के अनुपात में निर्धारित प्रतिशत पूर्णता के आधार पर आय की पहचान की जाती है। यह उन मामलों को छोड़कर है जहां प्रगति 25% से कम है, जिसे लागत पर अनुबंध कार्य-प्रगति के रूप में लिया जाता है।

#### 1.2.2 उप-ठेकेदारों द्वारा निष्पादित:

अर्जित आय की गणना उप-ठेकेदारों द्वारा प्राप्त कार्य की प्रगति पर की जाती है और आकस्मिकताओं, वारंटी आदि सहित अनुबंध से उत्पन्न होने वाली देनदारियों की अनुमानित राशि पर विचार करने के बाद मालिक/ठेकेदार द्वारा स्वीकार की जाती है।

## 2. सेवाओं की बिक्री

- अन्य सेवाओं से होने वाली आय को संविदात्मक शर्तों के अनुसार प्राप्त लक्ष्य के आधार पर बनाए गए चालान के अनुसार माना जाता है।
- अनुबंधों के विरुद्ध परिसमाप्त क्षति सहित दावों का हिसाब स्वीकृति के आधार पर किया जाता है।

## B. Statement of Profit and Loss

### 1. Income from Contracts is recognized as under:

#### 1.1 Contracts completed and handed over:

Full value of contract and additional services, if any, rendered, after providing for all known / guaranteed liabilities, wherever required and reduced by income taken upto previous accounting year.

#### 1.2 Contracts in progress:

##### 1.2.1 Executed by Company:

### a. Design Engineering and Project Management Consultancy Services

Income accrued calculated on the basis of percentage completion as per technical assessment of physical progress of the project having contract scheduled completion period of more than one year, after taking into account maximum liabilities including contingencies, warranties etc as per contract except in cases where progress is less than 15%, which is taken at cost as contract work-in-progress. Income from construction supervision is calculated on accrual basis.

### b. Turnkey Projects

- Consultancy fee is recognized as per 1.2.1(a), in cases where such fee is stipulated as a separate item in the contract.
- In other cases, income is recognized on the basis of percentage completion as determined in the ratio of cost incurred on work performed to estimated total cost of contract, after taking into account maximum liabilities including contingency, warranties etc as per contract except in cases where progress is less than 25%, which is taken at cost as contract work-in-progress.

#### 1.2.2 Executed by Sub-contractors:

Income accrued is calculated on the progress of the job achieved by the sub-contractors and accepted by the owner / contractor after considering estimated amount of liabilities arising out of the contract, including contingencies, warranties, etc.

## 2. Sale of services

- Income from other services is recognized as per invoices raised based on the milestones achieved in accordance with the contractual stipulations.
- Claims inclusive of Liquidated Damages against contracts are accounted for on acceptance basis.

### 3. संशयास्पद ऋणों के लिए छूट

पांच वर्ष और उससे अधिक की अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्त्य पूरी तरह से प्रदान किए जाते हैं। अन्य को व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाता है।

### 4. प्रावधान/देनदारियाँ

पिछले वर्षों में की गई देनदारियाँ/प्रावधान, परंतु पांच वर्षों में दावा न किए जाने पर योग्यता के आधार पर वापस लिखा जाता है।

### 5. अवमूल्यन/परिशोधन

- 5.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति पर या तो किसी समिति द्वारा मूल्यांकन की गई संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुसार, जो भी कम हो, लगाया जाता है।
- 5.2 वर्ष के दौरान पूंजीकृत/निपटान/त्याग की गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास ऐसे जोड़/निपटान/त्याग की तारीख के अनुपात में लिया जाता है। निपटान/सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त के लिए रखी गई संपत्तियों पर कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाता।
- 5.3 अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन) का परिशोधन उनके उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है। एएमसी के बिना तीन वर्ष का उपयोगी जीवन और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के एएमसी के साथ पांच वर्ष का उपयोगी जीवन।
- 5.4 पट्टे वाली भूमि पर प्रीमियम का भुगतान पट्टे की अवधि के दौरान किया जाता है।

### 6. प्रीपेड व्यय

प्रत्येक मामले में ₹5000/- तक का प्रीपेड व्यय, चालू वर्ष के राजस्व खाते से वसूला जाता है।

### 7. पूर्व अवधि की आय/व्यय

प्रत्येक मामले में पिछली अवधि से संबंधित ₹ 20,000/- तक का आय और व्यय चालू वर्ष के खाते में शामिल किए जाते हैं।

### 8. आय/व्यय का लेखा नकद आधार पर किया जाता है

- 8.1 बीमा एवं अन्य दावे
- 8.2 स्क्रेप की बिक्री
- 8.3 अतिदेय देनदारों/लेनदारों पर ब्याज, करों के भुगतान और कर रिफंड में देरी।
- 8.4 नोटिस भुगतान
- 8.5 विक्रेता पंजीकरण

### 3. Allowance for Doubtful Debts

Trade Receivables, outstanding for a period of five years and above are fully provided. Others are provided on individual merit basis.

### 4. Provisions/ Liabilities

Liabilities / provisions made in previous years but remaining unclaimed over five years are written back on merit basis.

### 5. Depreciation/Amortization

- 5.1 Depreciation on Property, Plant & Equipment is charged on Straight Line Method either on the basis of useful life of the assets evaluated by a committee or as per useful life specified in schedule II to the Companies Act, 2013, whichever is lower.
- 5.2 Depreciation on Property, Plant & Equipment capitalized / disposed off / discarded during the year is charged proportionate to the date of such addition / disposal / discarding. No depreciation is provided on assets held for disposal/retired from active use.
- 5.3 Intangible assets (Software Applications) are amortized over their useful life on straight line method. Useful life of three years without AMC and five years with AMC of software applications.
- 5.4 Premium on Lease hold land is amortized over the period of lease.

### 6. Pre paid Expenses

Prepaid expenditure incurred upto ₹5000/- in each case is charged to the current year's revenue account.

### 7. Prior Period Income / Expenditure

Income and Expenditure pertaining to earlier period upto ₹ 20,000/- in each case is included in the current year's account.

### 8. Income / Expenditure accounted for on cash basis

- 8.1 Insurance & Other Claims.
- 8.2 Sale of Scrap.
- 8.3 Interest on overdue debtors/creditors, delay in payment of taxes and tax refunds.
- 8.4 Notice Pay
- 8.5 Vendor Registration

## 9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देन को, लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। सभी मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और अंतर, यदि कोई हो, लाभ और हानि के विवरण में माना जाता है।

## 10. निवेश

दीर्घकालिक निवेश लागत पर बताए गए हैं और ऐसे मूल्य में किसी भी कमी के लिए प्रावधान किया गया है, जो प्रकृति में अस्थायी नहीं है।

### C. वस्तुसूची का मूल्यांकन

1. कच्चा माल - कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर। लागत भारत औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।
2. भण्डार एवं पुर्जे
- 2.1 भारत औसत आधार पर गणना की गई लागत पर स्टोर और स्पेयर का मूल्यांकन धीमी/न चलने वाली भंडार और पुर्जों की वस्तुओं का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के आधार पर लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। यह कार्य अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों को छोड़कर किया जाता है, जिनके लिए 100% प्रावधान किए गए हैं।
- 2.2 यदि वस्तु का अपेक्षित उपयोगी जीवन बारह महीने तक का है तो स्टोर और स्पेयर को इन्वेंटरी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि वस्तु का अपेक्षित उपयोगी जीवन बारह महीने से अधिक का है और यह संभव है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को नहीं मिलेंगे, तो उसे इन्वेंटरी के रूप में भी मान्यता दी जाती है।
3. अनुबंध कार्य प्रगति पर - लागत पर।
4. तैयार माल :  
उत्पाद द्वारा - शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर।

### D. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1. कंपनी द्वारा खरीदी/निर्मित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत घटाकर संचित मूल्यहास बताया गया है।
2. कंपनी द्वारा तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर संपत्तियों के मूल्य में गिरावट के कारण गैर-सक्रिय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर अतिरिक्त मूल्यहास प्रदान किया जाता है, जिससे खातों में प्रत्येक संपत्ति के लिए ₹1/- का अवशिष्ट मूल्य रह जाता है।
3. सरकारी निधियों/अनुदानों से अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और कंपनी के योगदान, यदि कोई हो, को ₹1/- प्रति परिसंपत्ति के नाममात्र मूल्य पर अनुदान के अंतर्गत बताया गया है।
4. स्टोर और स्पेयर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में तब मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम का अपेक्षित उपयोगी जीवन बारह महीने से अधिक है।

## 9. Foreign currency Transactions

Transactions in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing at the time of transaction. All monetary assets & liabilities are translated at the exchange rates prevailing at the year end and the differences, if any, are recognized in the Statement of Profit and Loss.

## 10. Investments

Long Term investments are stated at cost and provision is made for any diminution in such value, which is not temporary in nature.

### C. Valuation of Inventories

1. Raw Materials – at lower of cost or net realizable value. Cost is determined on weighted average basis.
2. Stores & Spares
- 2.1 Stores & Spares valued at cost calculated on weighted average basis. Item of stores and spares which are slow / non-moving are valued at lower of cost or net realizable value based on technical assessment / estimated realizable value except unserviceable, damaged and obsolete stores and spares for which 100% provisions are made.
- 2.2 Stores and spares are recognized as Inventory if expected useful life of the item is up to twelve months. In case expected useful life of the item is more than twelve months and it is probable that future economic benefits associated with the item will not flow to the company, the same are also recognized as Inventory.
3. Contract work-in-progress – at cost.
4. Finished Goods :  
By Product – at net realizable value.

### D. Property, Plant & Equipment

1. Property, Plant & Equipment purchased / constructed by the company is stated at historical cost less accumulated depreciation.
2. Additional depreciation on non active Property, Plant & Equipment is provided due to erosion in the value of the assets based on technical / financial evaluation by the company leaving a residual value of ₹1/- for each asset in the books.
3. Property, Plant & Equipment acquired out of Govt. funds/ grants and company's contribution, if any, are stated net of grants at a nominal value of ₹1/- per asset.
4. Stores and spares are recognized as Property, Plant and Equipment if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and expected useful life of the item is more than twelve months.



5. पूंजीगत कार्य प्रगति पर है और अमूर्त संपत्ति विकासाधीन है - लागत पर।
6. संपत्ति का क्षतिग्रस्त होना

किसी परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। हानि शुल्क उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जिसमें किसी परिसंपत्ति की पहचान क्षतिग्रस्त के रूप में की जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव हुआ है, तो पूर्व लेखांकन अवधि में चिन्हित की गई हानि को उलट दिया जाता है।

### E. सरकारी अनुदान

1. कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पृथक्करण योजना के कारण प्राप्त अनुदान को संबंधित व्यय से काट लिया जाता है।
2. राजस्व खाते पर प्राप्त अनुदान को उपयोग की सीमा तक अन्य आय में शामिल किया जाता है।
3. पूंजी खाते पर प्राप्त अनुदान को प्राप्त अनुदान की सीमा तक अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों से घटा दिया जाता है।

### F. ऋण लागत

किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए सीधे जिम्मेदार ऋण की लागत को उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य ऋण की लागतें राजस्व में जोड़ी जाती हैं।

### G. कर्मचारियों को लाभ

- ए) भविष्य निधि/कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के तहत कंपनी का योगदान संचय के आधार पर हिसाब लगाया जाता है।
- बी) कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी, एक परिभाषित लाभ योजना, एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रशासित की जाती है, जिसने एलआईसी के साथ ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है। एलआईसी पॉलिसी पर जोखिम प्रीमियम और बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निकाले गए खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।
- सी) अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश का लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर खातों में प्रदान किया जाता है।

### H. आयकर

- ए) चालू वर्ष के आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किया गया है।
- बी) वर्ष के लिए बही लाभ और कर योग्य लाभ के बीच "समय अंतर" के परिणामस्वरूप आस्थगित कर को उन कर दरों और कानूनों का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जो तुलन पत्रक की तिथि के अनुसार अधिनियमित या बहुत हद तक अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पहचाना जाता है और इस हद तक आगे बढ़ाया जाता है कि एक आभासी निश्चितता होती है कि परिसंपत्तियों को भविष्य में समायोजित किया जाएगा।

5. Capital work-in-progress and Intangible Asset under development – at cost.

### 6. Impairment of Assets

An Asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to statement of profit and loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognised in prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

### E. Government Grants

1. Grant received on account of voluntary retirement separation Scheme for employees are deducted from the related expenditure.
2. Grant received on revenue account are included in other income to the extent of utilization.
3. Grants received on capital account are reduced from the Property, Plant & Equipment and Intangible Assets acquired to the extent of Grant received.

### F. Borrowing Cost

Borrowing cost directly attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset is capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are charged to revenue.

### G. Employees Benefit

- a) Company's contribution under Provident Fund / Employees Families Pension Scheme is accounted for on accrual basis.
- b) Gratuity, a defined benefit plan, payable to employees is administered by a separate trust, which has taken a Group Gratuity Policy with LIC. The risk premium on the LIC policy and the expenses as arrived by the Actuarial valuation are charged to Statement of Profit & Loss.
- c) Earned Leave and Medical Leave benefits are provided in the accounts on the basis of actuarial valuation.

### H. Income Tax

- a) Provision for Current Year Income Tax is made in accordance with the Income tax Act 1961.
- b) Deferred Tax resulting from "timing difference" between book profit and taxable profit for the year is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. The deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent that there is a virtual certainty that the assets will be adjusted in future.

## I. प्रावधान एवं आकस्मिक देनदारियाँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि देनदारी को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और देनदारी की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। एक आकस्मिक देनदारी को इसके लिए मान्यता दी गई है:

- ए) एक वर्तमान देनदारी जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है लेकिन इसे एक प्रावधान के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि या तो यह संभावना है कि देनदारी को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, यह दूरस्थ है या देनदारी की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
- बी) एक संभावित देनदारी जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।

## J. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले वर्ष के शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

## I. Provisions & Contingent Liabilities

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. A contingent liability is recognized for:

- a) A present obligation that arises from past events but is not recognized as a provision because either the possibility that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation is remote or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.
- b) A possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the company.

## J. Earning Per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स  
2. शेयर पूंजी

PROJECTS & DEVELOPMENT INDIA LIMITED

Notes to Financial Statements for the year ended 31st March, 2023  
2. Share Capital

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
<b>अधिकृत</b>	<b>AUTHORISED</b>		
प्रत्येक ₹1,000/- मूल्य के 470000 इक्विटी शेयर	470000 Equity Shares of ₹1,000/- each	4,700.00	4,700.00
130000 7% गैर-संचयी प्रतिदेय	130000 7% Non-Cumulative Redeemable		
प्रत्येक ₹ 1000/- के वरीयता शेयर	Preference Shares of ₹ 1000/- each	1,300.00	1,300.00
		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>निर्मित, अधिकृत और प्रदान</b>	<b>ISSUED, SUBSCRIBED &amp; PAID UP</b>		
172985 इक्विटी शेयर [पिछले वर्ष	172985 Equity Shares [Previous year	1,729.85	1,729.85
172985 इक्विटी शेयर (जिनमें से 42485)	172985 Equity Shares(out of which 42485		
शेयरों को पूर्ण भुगतान के रूप में आवंटित किया गया था	shares were allotted as fully paid up for		
नकद के अलावा अन्य प्रतिफल)] ₹ 1000/-प्रत्येक	consideration other than cash)] of ₹ 1000/-each		
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,729.85</b>	<b>1,729.85</b>

2.1 शेयर पूंजी का खुलासा

ए. रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

2.1 Disclosure of Share capital

a. Reconciliation of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period

विवरण	Particulars	2022-23		2021-22	
		शेयरों की संख्या No of Shares	(₹ लाख में) (₹ in Lakhs )	शेयरों की संख्या No of Shares	(₹ लाख में) (₹ in Lakhs )
<b>इक्विटी शेयर</b>	<b>Equity Shares</b>				
वर्ष की शुरुआत में	At the beginning of the year	1,72,985	1,729.85	1,72,985	1,729.85
वर्ष के दौरान जारी किया गया	Issued during the year	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस खरीदा गया	Bought back during the year	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बलाया	Outstanding at the end of the year	1,72,985	1,729.85	1,72,985	1,729.85

बी इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

"कंपनी के पास ₹1000/- के बराबर मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

कंपनी लाभांश की घोषणा और भुगतान भारतीय रुपये में करती है। कंपनी के निदेशक मंडल ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹324 लाख का लाभांश घोषित किया है। इसे 31.12.2022 को आयोजित एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और 18.01.2023 को भारत सरकार को भुगतान किया गया था। कंपनी के निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 358 लाख के लाभांश की घोषणा की है। लाभांश भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 358 लाख का नकद बहिर्प्रवाह होगा।"

सी. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

b Terms/rights attached to equity shares

Company has only one class of equity shares having a par value of ₹1000/-. Each holder of equity share is entitled to one vote per share.

The Company declares and pays dividend in Indian rupees. The Board of Directors of the Company has declared Dividend of ₹324 Lakhs for the year ended 31.03.2022. The same was approved by shareholders in AGM held on 31.12.2022 and was paid to Govt.of India on 18.01.2023. The Board of Directors of the company has declared Dividend of ₹358 lakhs for the year ended 31.03.2023 subject to approval of the Shareholders at the Annual General Meeting.The Dividend payout would result in a cash outflow of ₹358 lakhs.

c. Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

विवरण	Particulars	31.03.2023 तक As at 31.03.2023		31.03.2022 तक As at 31.03.2022	
		धारित शेयरों की संख्या No of Shares Held	% धारित % Holding	धारित शेयरों की संख्या No of Shares Held	% धारित % Holding
<b>इक्विटी शेयर</b>	<b>Equity Shares</b>				
भारत के राष्ट्रपति	President of India	1,72,976	99.99%	1,72,976	99.99%
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>1,72,976</b>	<b>99.99%</b>	<b>1,72,976</b>	<b>99.99%</b>

d. कंपनी ने अनुबंध के अनुसार नकदी में भुगतान प्राप्त किए बिना किसी भी पूर्ण भुगतान वाले शेयरों को आवंटित नहीं किया है, न ही बोनस शेयरों के माध्यम से किसी भी पूर्ण भुगतान वाले शेयरों को आवंटित किया है और न ही तुलन पत्रक की तिथि से पहले तुरंत पांच साल की अवधि के दौरान शेयरों के किसी भी वर्ग को वापस खरीदा है।

d. The Company has not allotted any fully paid up shares pursuant to contract(s) without payment being received in cash nor has allotted any fully paid up shares by way of bonus shares nor has bought back any class of shares during the period of five years immediately preceding the Balance Sheet date.

e. प्रमोटरों की शेयरधारिता

e. Shareholding of Promoters

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर (2022-23) Shares held by promoters at the end of the year (2022-23)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	Promoter name	शेयरों की संख्या No of Shares Held	कुल शेयरों का % %of total shares	
भारत के राष्ट्रपति	President of India	1,72,976	99.99%	-
कुल	<b>Total</b>	<b>1,72,976</b>	<b>99.99%</b>	-

प्रमोटरों की शेयरधारिता

Shareholding of Promoters

वर्ष (2021-22) के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर Shares held by promoters at the end of the year (2021-22)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
प्रमोटर का नाम	Promoter name	शेयरों की संख्या No of Shares Held	कुल शेयरों का % %of total shares	
भारत के राष्ट्रपति	President of India	1,72,976	99.99%	-
कुल	<b>Total</b>	<b>1,72,976</b>	<b>99.99%</b>	-

### 3. आरक्षित और अधिशेष

### 3. Reserves and Surplus

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण		PARTICULARS		31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
(i)	<b>सामान्य रिजर्व</b>	(i)	<b>General Reserve</b>		
	प्रारंभिक जमा		Opening balance	913.30	913.30
	जोड़ना, लाभ एवं हानि विवरण से स्थानांतरित		Add. Transferred from Statement of Profit & Loss	-	-
	खय, वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		Less. Utilized during the Year	-	-
	<b>समापन शेष (नोट 3.1 देखें)</b>		<b>Closing Balance(Refer Note 3.1)</b>	<b>913.30</b>	<b>913.30</b>
(ii)	<b>लाभ एवं हानि खाते का विवरण</b>	(ii)	<b>Statement of Profit &amp; Loss Account</b>		
	प्रारंभिक जमा		Opening balance	14,097.06	13,111.18
	जोड़ना, लाभ एवं हानि विवरण से स्थानांतरित		Add. Transferred from Statement of Profit & Loss	358.17	1080.88
	<b>खय: विनियोग</b>		<b>Less: Appropriation</b>	-	-
	जनरल रिजर्व में स्थानांतरित		Transferred to General Reserve	-	-
	लाभांश [नोट संख्या 2.1(बी) देखें]		Dividend [refer Note No. 2.1(b)]	324.00	95.00
	<b>समापन शेष</b>		<b>Closing Balance</b>	<b>14,131.23</b>	<b>14,097.06</b>
	<b>कुल (i)+(ii)+(iii)</b>		<b>TOTAL (i)+(ii)+(iii)</b>	<b>15,044.53</b>	<b>15,010.36</b>

3.1 सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनी के पुनरुद्धार पैकेज के अनुसार, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 19027/2/99-एफसीए-II दिनांक 7 मई, 2003 के माध्यम से, भारत सरकार ने स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹13651 लाख की गैर-योजना निधि बढ़ा दी है। ₹394 लाख (पिछले वर्ष ₹394 लाख) की अप्रयुक्त निधि को भविष्य में उपयोग के लिए सामान्य रिजर्व में रखा गया है।

3.1 As per the Revival package of the company approved by the Govt. of India vide letter No. 19027/2/99-FCA-II dated 7th May, 2003, the GOI has extended non-plan funds of ₹13651 lakhs towards implementation of the sanctioned Revival Scheme. The unutilized funds of ₹394 lakhs (previous year ₹394 lakhs) have been kept in General Reserve for utilization in future.

### 4. दीर्घकालिक उधार

### 4. Long-term Borrowings

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
दीर्घकालिक उधार	Long-term Borrowings	-	-
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/देयताएँ (शुद्ध)

### 5. Deferred Tax Assets/Liabilities (Net)

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	Deferred Tax Assets	832.41	730.43
आस्थगित टैक्स देयता	Deferred tax Liabilities	155.62	175.25
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देनदारियाँ)(नेट)	Defferred Tax Assets/(Liabilities)(Net)	676.79	555.18
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>676.79</b>	<b>555.18</b>

### 5.1 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देनदारियों के प्रमुख घटक

### 5.1 Major Components of Deferred Tax Assets/ Liabilities

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

	विवरण	Particulars	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
ए.	आस्थगित कर दायित्व घटक	ए. <b>Deferred Tax Liability Component</b>		
	कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार डब्ल्यू.डी.वी का अंतर	Diff. of W.D.V as per Companies Act, 2013 & Income Tax Act, 1961	618.34	696.32
	कुल आस्थगित दायित्व घटक	Total Deferred Liability Component	618.34	696.32
	<b>प्रचलित दर पर कुल आस्थगित कर देयता घटक (ए)</b>	<b>Total Deferred Tax Liability Component at Prevailing Rate (A)</b>	<b>155.62</b>	<b>175.25</b>
बी.	आस्थगित कर परिसंपत्ति घटक	बी. <b>Deferred Tax Assets Component</b>		
	अस्वीकृति:	Disallowance:		
	-आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी के अनुसार	-As Per Sec 43 B of I.T Act, 1961	2180.17	2089.76
	अन्य	-Others	1127.24	812.47
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति घटक	Total Deferred Tax Assets Component	3307.41	2902.23
	<b>प्रचलित दर पर कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति घटक (बी)</b>	<b>Total Deferred Tax Assets Component at Prevailing Rate (B)</b>	<b>832.41</b>	<b>730.43</b>
	शुद्ध आस्थगित कर (संपत्ति)/देयता घटक (ए-बी)	Net Deferred Tax (Assets)/Liability Component (A-B)	(676.79)	(555.18)
	घटाएँ: 01/04/2022 को प्रारंभिक शेष	Less : Opening Balance as on 01/04/2022	(555.18)	(581.55)
	<b>प्रावधान आवश्यक/(वापस लिखा हुआ)</b>	<b>Provision Required/(written Back)</b>	<b>(121.61)</b>	<b>26.37</b>

## 6. अन्य दीर्घकालिक देनदारियाँ

## 6. Other Long Term Liabilities

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
देय व्यापार	Trade Payable	-	-
अन्य	Others		
आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/अन्य-सुरक्षा जमा	Suppliers/Contractors/Others-Security Deposit	114.75	139.10
कुल	TOTAL	114.75	139.10

## 7. दीर्घकालिक प्रावधान

## 7. Long Term Provisions

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
कर्मचारी लाभ	Employee Benefits		
अर्जित अवकाश का प्रावधान	Provision for Earned Leave	1,159.39	1,265.00
चिकित्सा अवकाश का प्रावधान	Provision for Medical Leave	629.79	590.59
कुल	TOTAL	1,789.18	1,855.59

## 8. अल्पावधि उधार

## 8. Short-term Borrowings

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
अल्पावधि उधार	Short-term Borrowings	-	-
कुल	TOTAL	-	-

## 9. व्यापार देनदारियाँ

## 9. Trade Payables

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

ब्यौरा	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	MICRO and Small Enterprises	155.63	169.76
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा	Other than MICRO and Small Enterprises	515.69	789.86
कुल	Total	671.32	959.62

### 9.1 देय व्यापार की बढ़ोतरी

### 9.1 Ageing of Trade Payable

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

31 मार्च 2023 तक	As at 31st March 2023	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया Outstanding for the following periods from due date of payment					कुल Total
		बिल न किया गया/देय नहीं Unbilled/ Not due	एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
(i) एमएसएमई	(i) MSME	155.63	-	-	-	-	155.63
(ii) अन्य	(ii) Others	405.48	-	0.12	-	110.09	515.69
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-
कुल	Total	561.11	-	0.12	-	110.09	671.32

31 मार्च 2022 तक	As at 31st March 2022	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
		Outstanding for the following periods from due date of payment					
		बिल न किया गया/देय नहीं Unbilled/ Not due	एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	कुल Total
(i) एमएसएमई	(i) MSME	164.49	5.27	-	-	-	169.76
(ii) अन्य	(ii) Others	363.12	269.33	0.06	-	157.35	789.86
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई	(iii) Disputed dues - MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	(iv) Disputed dues - Others	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>527.61</b>	<b>274.60</b>	<b>0.06</b>	<b>-</b>	<b>157.35</b>	<b>959.62</b>

9.2 कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में अपनी स्थिति का दावा करने वाला कोई ज्ञापन (जैसा कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत अधिसूचित प्राधिकारी के साथ दायर किया जाना आवश्यक है) प्राप्त नहीं हुआ है, परिणामस्वरूप ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसके लिए कंपनी पर बकाया है, जो 31 मार्च, 2023 तक 45 दिनों से अधिक समय से बकाया है।

9.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ("अधिनियम") के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक जानकारी इस हद तक निर्धारित की गई है कि कंपनी द्वारा ऐसे पक्षों की पहचान उनके पास उपलब्ध जानकारी और रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। अधिनियम की धारा 22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण इस प्रकार है। विलंबित भुगतान पर देय ब्याज के संबंध में प्रकटीकरण केवल संबंधित आपूर्तिकर्ताओं से ज्ञापन दाखिल करने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के बाद किए गए भुगतान के संबंध में निर्धारित किया गया है।

9.2 The Company has not received any memorandum (as required to be filed by the suppliers with the notified authority under MICRO, Small and Medium Enterprises Development Act 2006) claiming their status as MICRO, Small and Medium Enterprises, consequently there are no such entities to whom the Company owes dues, which are outstanding for more than 45 days as on 31st March, 2023."

9.3 The information as required to be disclosed under The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ("the Act") has been determined to the extent such parties have been identified by the company, on the basis of information and records available with them. Disclosure as required under section 22 of the Act, is as under. Disclosure in respect of interest due on delayed payment has been determined only in respect of payments made after the receipt of information, with regards to filing of memorandum, from the respective suppliers.

क्रमांक	विवरण	S.No.	Particulars	31 मार्च, 2023 तक 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक 31st March, 2022
(i)	वर्ष के अंत तक मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया	(i)	Principal amount remaining unpaid as at end of the year	155.63	169.76
(ii)	ऊपर देय ब्याज	(ii)	Interest due on above	-	-
1	(i) एवं (ii) का योग	1	Total of (i) & (ii)	155.63	169.76
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत भुगतान की गई ब्याज की राशि, लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ	2	Amount of interest paid under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during accounting year	-	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना भुगतान की गई मूल राशि)	3	Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (Principal amount paid without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006)	-	-
4	लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज और अवैतनिक शेष की राशि	4	Amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year	-	-
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त ब्याज की राशि शेष है और अगले वर्ष में भी देय है, ऐसी तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यम को किया जाता है।	5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006	-	-



## 10. अन्य वर्तमान देनदारियां

## 10. Other Current Liabilities

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
पूँजीगत व्यय के लिए ऋणदाता	Creditors for Capital Expenditure	-	-
वेतन & मजदूरी	Salaries & Wages	146.10	227.33
प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	Performance Related Pay	444.51	444.51
भारत सरकार अनुदान (संदर्भ नोट संख्या 46)	GOI Grant (Ref Note No. 46)	35.00	35.00
ग्राहकों से अग्रिम रकम लेना	Advances from Customers	600.39	919.35
अग्रिम आय प्राप्त हुई	Income received in advance	260.57	191.11
आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/अन्य-ईएमडी/जमा	Suppliers/Contractors/Others-EMD/Deposit	6.61	7.40
अन्य देय (नोट 10.1 देखें)	Other Payables(Refer Note 10.1)	719.57	664.28
(विदहोल्डिंग टैक्स और अन्य देय सहित)	(including withholding tax & other payables)		
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2,212.75</b>	<b>2,488.98</b>

10.1 अन्य वर्तमान देनदारियों में अन्य देय-आस्थगित सेवा कर के तहत ₹20.23 लाख (पिछले वर्ष ₹21.24 लाख) शामिल हैं, जो देय नहीं है क्योंकि यह 01.04.2011 से पहले की अवधि से संबंधित है जब सेवा कर ग्राहक से प्राप्त होने पर देय था।

10.1 Other Current Liabilities includes ₹20.23 lakhs(Previous Year ₹21.24 Lakhs) under the head Other Payables-Deferred Service Tax which is not due as it pertains to period prior to 01.04.2011 when service tax was payable on receipt from customer.

## 11. अल्पावधि प्रावधान

## 11. Short Term Provisions

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
<b>कर्मचारी लाभ</b>	<b>Employee Benefits</b>		
ग्रेच्युटी का प्रावधान	Provision for Gratuity	118.15	6.37
अर्जित अवकाश का प्रावधान	Provision for Earned Leave	107.67	96.81
चिकित्सा अवकाश का प्रावधान	Provision for Medical Leave	73.13	61.21
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा के लिए प्रावधान	Provision for Post Retirement Medical	54.13	31.87
<b>अन्य</b>	<b>Others</b>		
<b>इक्विटी शेयरों पर लाभांश</b>	<b>Dividend on Equity Shares</b>		
आयकर प्रावधान	Income Tax Provision	241.63	3,181.44
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>594.71</b>	<b>3,377.70</b>

12: 31 मार्च 2023 तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति  
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT AND INTANGIBLE ASSETS AS AT 31ST MARCH 2023

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण DESCRIPTION	सकल ब्लॉक						मूल्यहास / DEPRECIATION						नेट ब्लॉक / NET BLOCK	
	इस दिनांक तक AS ON 01-04-2022	वर्ष के दौरान अतिरिक्त ADDITION DURING THE YEAR	बिक्री/ समायोजन SALES/ ADJUSTMENT	स्थानांतरण इन/ आउट TRANSFER IN/ OUT	कुल इस दिनांक तक TOTAL AS ON 31-03-2023	इस दिनांक तक AS ON 01-04-2022	वर्ष के दौरान प्रदान किया गया PROVIDED DURING THE YEAR	बिक्री/ समायोजन SALES/ ADJUSTMENT	हानि क्षति IMPAIRMENT LOSS	स्थानांतरण इन/ आउट TRANSFER IN/ OUT	कुल इस दिनांक तक TOTAL AS ON 31-03- 2023	इस दिनांक तक AS AT 31-03-2023	इस दिनांक तक AS AT 31-03-2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(10)	(11)	(12)	(13)	
<b>मूर्त संपत्ति/ TANGIBLE ASSETS</b>														
भूमि/ LAND														
a) फ्री होल्ड (वडोदरा)/ FREE HOLD (VADODARA)	192.51				192.51							192.51	192.51	
b) लीज होल्ड (नोएडा)/ LEASE HOLD (NOIDA)	105.72				105.72	39.81	1.17				40.98	64.74	65.91	
इमारतों/ BUILDINGS	836.52				836.52	278.40	12.80		21.96		313.16	523.36	558.12	
सड़क, पुल और पुलिया/ ROAD, BRIDGES & CULVERTS	22.03				22.03	17.25	0.21		0.09		17.55	4.48	4.78	
संयंत्र उपकरण/ PLANT & EQUIPMENT	324.94	103.91	(17.93)		410.92	245.23	15.84	(17.04)			244.03	166.89	79.71	
कार्यालय उपकरण/ OFFICE EQUIPMENT	109.13	18.10	(1.68)		125.55	89.26	6.14	(1.39)			94.01	31.54	19.87	
जल सीवर एवं जल निकासी/ WATER SEWERAGE & DRAINAGE	16.46				16.46	12.44	0.42		0.17		13.03	3.43	4.02	
विविध, उपकरण/ MISC. EQUIPMENTS	2,008.09	147.72	(5.50)		2,150.31	1,595.98	147.99	(5.50)			1,738.47	411.84	412.11	
फर्नीचर और फिक्चर्स/ FURNITURE & FIXTURES	332.90		(8.63)		324.27	294.55	4.68	(8.38)			290.85	33.42	38.35	
वाहन/ VEHICLES	23.42		-13.74		9.68	22.25		-13.07			9.18	0.50	1.17	
<b>कुल मूर्त संपत्ति/ TOTAL TANGIBLE ASSETS</b>	<b>3971.72</b>	<b>269.73</b>	<b>(47.48)</b>	<b>-</b>	<b>4,193.97</b>	<b>2595.17</b>	<b>189.25</b>	<b>(45.38)</b>	<b>22.22</b>	<b>-</b>	<b>2761.26</b>	<b>1432.71</b>	<b>1376.55</b>	
<b>अमूर्त संपत्ति/ INTANGIBLE ASSETS</b>														
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/ COMPUTER SOFTWARE	1164.00	27.97			1,191.97	1,138.84	14.74				1,153.58	38.39	25.16	
<b>कुल अमूर्त संपत्ति/ TOTAL INTANGIBLE ASSETS</b>	<b>1,164.00</b>	<b>27.97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,191.97</b>	<b>1,138.84</b>	<b>14.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,153.58</b>	<b>38.39</b>	<b>25.16</b>	
<b>कुल/ TOTAL</b>	<b>5,135.72</b>	<b>297.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,385.94</b>	<b>3,734.01</b>	<b>203.99</b>	<b>(45.38)</b>	<b>22.22</b>	<b>-</b>	<b>3,914.84</b>	<b>1,471.10</b>	<b>1,401.71</b>	
<b>पिछला वर्ष/ PREVIOUS YEAR</b>	<b>5,098.77</b>	<b>44.65</b>	<b>(7.70)</b>	<b>-</b>	<b>5,135.72</b>	<b>3,518.34</b>	<b>222.26</b>	<b>(6.59)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,734.01</b>	<b>1,401.71</b>	<b>1,580.43</b>	

टिप्पणियाँ/ Notes :

1: नोएडा की लीज होल्ड भूमि का नब्बे वर्षों की अवधि में परिशोधन किया गया है।  
Lease hold Land of NOIDA is Amortized over period of Ninety years .

12A. पूंजीगत कार्य - प्रगति पर

12A. Capital Work-in-Progress

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

सीडब्ल्यूआईपी	CWIP	2022-23 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि Amount in CWIP for a period of 2022-23				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजनाएँ, जो प्रगति पर हैं	Projects in progress					
परियोजनाएँ, जो अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं	Projects that have been temporarily suspended					

पूंजीगत कार्य - प्रगति पर

Capital work in progress

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

सीडब्ल्यूआईपी	CWIP	2021-22 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि Amount in CWIP for the period 2021-22				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजनाएँ, जो प्रगति पर हैं	Projects in progress					
परियोजनाएँ, जो अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं	Projects that have been temporarily suspended					

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

सीडब्ल्यूआईपी	CWIP	2022-23 में पूरा किया जाना है To be completed in 2022-23				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजनाएँ 1	Projects 1					
परियोजनाएँ 2	Projects 2					

सीडब्ल्यूआईपी	CWIP	2021-22 में पूरा किया जाना है To be completed in 2021-22				कुल
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजनाएँ 1	Projects 1					
परियोजनाएँ 2	Projects 2					

## 12B. विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ

## 12B. Intangible Assets Under Development

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ	Intangible assets under development	2022-23 की अवधि के लिए अमूर्त संपत्ति में राशि Amount in intangible assets for the period 2022-23				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
वे परियोजनाएं, जो प्रगति पर हैं	Projects that are in progress					
परियोजनाएं, जो अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं	Projects that were temporarily suspended					

### विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ

### Intangible assets under development

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ	Intangible assets under development	2021-22 की अवधि के लिए अमूर्त संपत्ति में राशि Amount in intangible assets for the period 2021-22				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
वे परियोजनाएं, जो प्रगति पर हैं	Projects that are in progress					
परियोजनाएं, जो अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं	Projects that were temporarily suspended					

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ	Intangible assets under development	2022-23 में पूरा किया जाना है To be completed in 2022-23				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजनाएं 1	Projects 1					
परियोजनाएं 2	Projects 2					

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विकासधीन अमूर्त संपत्तियाँ	Intangible assets under development	2021-22 में पूरा किया जाना है To be completed in 2021-22				कुल Total
		एक वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्ष से अधिक More than 3 years	
परियोजनाएं 1	Projects 1					
परियोजनाएं 2	Projects 2					

### 13. गैर-वर्तमान निवेश

### 13. Non-current Investments

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
निवेश (गैर-व्यापार, उद्धृत नहीं किया गया और मूल्यांकित)। लागत) ₹ 10/- प्रत्येक के 50000 शेयर मेसर्स राउरकेला नाइट्रेट लिमिटेड, भुवनेश्वर	Investment ( Non-Trade unquoted & valued at cost) 50000 shares of ₹ 10/- each in M/s Rourkela Nitrate Ltd., Bhubaneswar	5.00	5.00
कम: मूल्य में कटौती के लिए भत्ता	Less: Allowance for Dimunition in value	5.00	5.00
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	-	-

#### 13.1 निवेश के लिए प्रकटीकरण

#### 13.1 Disclosure for Investements

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
उद्धृत निवेश की कुल राशि	Aggregate amount of quoted investments	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	Market value of quoted investments	-	-
उद्धृत न किए गए निवेशों की कुल राशि	Aggregate amount of unquoted investments	5.00	5.00
निवेश के मूल्य में कमी के लिए कुल भत्ता	Aggregate Allowance for diminution in value of investments	5.00	5.00

### 14. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

### 14. Long Term Loans and Advances

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	Secured , Considered Good	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	Unsecured, considered good	-	-
संदिग्ध	Doubtful	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	-	-
खय: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	Less : Allowance for bad and doubtful debts	-	-
निदेशकों द्वारा देय ऋण और अग्रिम	Loans and advances due by directors	-	-
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	-	-

### 15. अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति

### 15. Other Non-current Assets

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
<b>अन्य</b>	<b>Others</b>		
टीडीएस प्राप्त/प्राप्त खाता	TDS receivable/received account	2,039.90	4,521.76
दूसरों के पास अग्रिम/जमा	Advances/Deposits with Others		
अच्छा माना जाता है	Considered Good	38.33	35.09
संदिग्ध माना जाता है	Considered Doubtful	61.96	61.96
		100.29	97.05
खय: संदिग्ध अग्रिम/जमा के लिए भत्ता	Less: Allowance for Doubtful Advances/ Deposit	61.96	61.96
		38.33	35.09
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2,078.23</b>	<b>4,556.85</b>

### 16. वर्तमान निवेश

### 16. Current Investments

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
वर्तमान निवेश	Current Investments	-	-
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	-	-

## 17. सूची

## 17. Inventories

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
भंडार, पुर्जे, रसायन और पैकिंग सामग्री	Stores, Spares, Chemicals & Packing Materials		
पैकिंग के लिए सामग्री	Packing Material	6.25	6.25
रसायन एवं स्पेयर पार्ट्स का भंडार	Stores Chemicals & Spare Parts	231.90	231.90
दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है	Stores under Inspection	-	
		238.15	238.15
कच्चा माल	Raw material	44.47	44.47
तैयार माल	Finished goods	204.41	204.41
अर्द्ध - निर्मित सामान	Semi-finished goods	40.73	40.73
अन्य परियोजनाओं से अधिशेष	Surplus from other projects	13.90	13.90
		303.51	303.51
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>541.66</b>	<b>541.66</b>
खय: इन्वेंटरी पर नुकसान के लिए भत्ता	Less: Allowance for loss on Inventories	529.15	430.60
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.51</b>	<b>111.06</b>

17.1 इन्वेंटरी में स्टोर और स्पेयर के अचल / धीमी गति से चलने वाले स्टॉक, पैकिंग सामग्री, निरीक्षण के तहत स्टोर, तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, अन्य परियोजनाओं से अधिशेष और कच्चे माल का कुल मिलाकर ₹ 541.66 लाख (पिछले वर्ष ₹ 541.66 लाख) शामिल हैं। तकनीकी मूल्यांकन/अनुमानित वसूली योग्य मूल्य के आधार पर खातों में कुल अनुमानित हानि ₹ 529.15 लाख (पिछले वर्ष ₹ 430.60 लाख) का प्रावधान किया गया है।

17.1 Inventories include non-moving / slow moving stocks of stores and spares, Packing Material, Stores under inspection, finished goods, semi-finished goods, Surplus from other projects and raw materials aggregating to ₹ 541.66 lakhs (previous year ₹ 541.66 lakhs). Provision for estimated loss aggregating to ₹ 529.15 lakhs (previous year ₹ 430.60 lakhs) has been made in the accounts based on technical assessment / estimated realizable value.

## 18. व्यापार प्राप्तियां

## 18. Trade Receivables

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	Secured, considered good	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	Unsecured, considered good	7,838.60	7,824.66
संदिग्ध	Doubtful	1,048.70	786.23
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>8,887.30</b>	<b>8,610.89</b>
खय: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (नोट संख्या 50)	Less : Allowance for bad and doubtful debts(Note No.50)	1,048.70	786.23
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>7,838.60</b>	<b>7,824.66</b>

18.1 असुरक्षित व्यापार प्राप्तियों को अच्छा माना जाता है जिसमें वित्तीय विवरण के नोट नंबर 1 के खंड बी के पैरा 1.2.1 (ए) के अनुसार निर्धारित/गणना की गई ₹ 2994.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4377.53 लाख) की राशि का बिना बिल वाला राजस्व शामिल है।

18.1 Unsecured Trade Receivables considered good includes unbilled Revenue of ₹ 2994.62 Lakhs (Previous Year ₹ 4377.53 Lakhs) determined/calculated as per para 1.2.1(a) of clause B of Note No.1 of Financial Statements.

18.2 व्यापार प्राप्य में की उन्धि

18.2 Ageing of Trade Receivable

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

31 मार्च 2023 तक	As at 31st March 2023	जिनका बिल नहीं हुआ Unbilled	देय नहीं Not Due	6 महीने से कम Less than 6 months	6 महीने-1 साल 6 months-1 years	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 Years	3 वर्ष से अधिक More than 3Years	कुल Total
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	(i)Undisputed Trade Receivables- Considered Good	2,994.62	1,960.45	1,921.74	235.56	342.51	277.91	105.81	7,838.60
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	(ii)Undisputed Trade Receivables- Considered Doubtful	-	-	1.08	19.91	5.97	31.97	989.77	1,048.70
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	(iii) Disputed Trade Receivables- Considered Good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	(iv) Disputed Trade Receivables- Considered Doubtful	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>2,994.62</b>	<b>1,960.45</b>	<b>1,922.82</b>	<b>255.47</b>	<b>348.48</b>	<b>309.88</b>	<b>1,095.58</b>	<b>8,887.30</b>
खय: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	Less : Allowance for bad and doubtful debts	-	-	1.08	19.91	5.97	31.97	989.77	1,048.70
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>2,994.62</b>	<b>1,960.45</b>	<b>1,921.74</b>	<b>235.56</b>	<b>342.51</b>	<b>277.91</b>	<b>105.81</b>	<b>7,838.60</b>

31 मार्च 2023 तक	As at 31st March 2022	जिनका बिल नहीं हुआ Unbilled	देय नहीं Not Due	6 महीने से कम Less than 6 months	6 महीने-1 साल 6 months-1 years	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 Years	3 वर्ष से अधिक More than 3Years	कुल Total
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	(i)Undisputed Trade Receivables- Considered Good	4,377.53	1,198.72	779.39	409.18	428.62	362.63	268.59	7,824.66
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है	(ii)Undisputed Trade Receivables- Considered Doubtful	-	-	-	-	-	-	786.23	786.23
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	(iii) Disputed Trade Receivables- Considered Good	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - पर विचार किया गया	(iv) Disputed Trade Receivables- Considered	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>4,377.53</b>	<b>1,198.72</b>	<b>779.39</b>	<b>409.18</b>	<b>428.62</b>	<b>362.63</b>	<b>1,054.82</b>	<b>8,610.89</b>
खय: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	Less : Allowance for bad and doubtful debts	-	-	-	-	-	-	786.23	786.23
<b>कुल</b>	<b>Total</b>	<b>4,377.53</b>	<b>1,198.72</b>	<b>779.39</b>	<b>409.18</b>	<b>428.62</b>	<b>362.63</b>	<b>268.59</b>	<b>7,824.66</b>

## 19. नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष

### 19.A. नकद और नकद समकक्ष

## 19. Cash & Cash equivalents and Other Bank Balances

### 19.A Cash & Cash equivalents

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
<b>नकद और नकद के समकक्ष</b>	<b>Cash and Cash equivalents</b>		
हाथ में नकदी	Cash in Hand	0.01	0.10
चालू खाते में	In Current Account	156.37	298.18
सावधि जमा खाते में (3 महीने से कम परिपक्वता) - गिरवी न रखा गया	In Fixed Deposit Account (Less than 3 month maturity)-Unpledged	150.00	1,058.80
सावधि जमा खाते में (3 महीने से कम परिपक्वता) - गिरवी रखी गई	In Fixed Deposit Account (Less than 3 month maturity)-Pledged	-	1,543.82
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>306.38</b>	<b>2,900.90</b>

### 19B अन्य बैंक शेष

### 19.B Other Bank Balances

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
<b>अन्य बैंक शेष</b>	<b>Other Bank Balances</b>		
सावधि जमा खाते में (3 महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष की परिपक्वता तक) - गिरवी न रखा हुआ	In Fixed Deposit Account (More than 3 month but upto one year maturity)-Unpledged	6,422.69	5,841.70
सावधि जमा खाते में (3 महीने से अधिक लेकिन एक वर्ष की परिपक्वता तक) - गिरवी रखी गई	In Fixed Deposit Account (More than 3 month but upto one year maturity)-Pledged	2,618.63	1,585.04
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9,041.32</b>	<b>7,426.74</b>
<b>कुल (19A + 19B)</b>	<b>GRAND TOTAL (19A + 19B)</b>	<b>9,347.70</b>	<b>10,327.64</b>



## 20. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

## 20. Short Term Loans and Advances

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
<b>अग्रिम:-</b>	<b>Advances:-</b>		
नकद या वस्तु के रूप में या मूल्य के आधार पर वसूली योग्य	Recoverable in cash or kind or for value		
प्राप्त किया जाना है (असुरक्षित):	to be received (Unsecured):		
अच्छा माना जाता है	Considered Good	130.01	183.62
संदिग्ध माना जाता है	Considered Doubtful	3.06	3.06
		133.07	186.68
खय: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	Less: Allowance for Doubtful Advances	3.06	3.06
		130.01	183.62
<b>जमा:</b>	<b>Deposits:</b>		
अच्छा माना जाता है	Considered Good	0.42	0.52
संदिग्ध माना जाता है	Considered Doubtful	-	-
		0.42	0.52
खय: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	Less: Allowance for Doubtful Deposits	-	-
		0.42	0.52
<b>अन्य</b>	<b>Others</b>	-	-
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>130.43</b>	<b>184.14</b>

## 21. अन्य चालू परिसंपत्तियां

## 21. Other Current Assets

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	31 मार्च, 2023 तक As at 31st March, 2023	31 मार्च, 2022 तक As at 31st March, 2022
<b>अन्य</b>	<b>Others</b>		
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन तारीख पर देय नहीं	Interest accrued but not due on date	287.97	255.91
प्रीपेड खर्चे	Prepaid Expenses	249.22	268.23
सुरक्षा जमा राशि	Security Deposit	29.28	31.70
भारत सरकार अनुदान प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या 46)	GOI Grant Receivable (Ref Note No. 46)	43.53	43.53
<b>अन्य प्राप्य</b>	<b>Other Receivables</b>		
<b>असुरक्षित</b>	<b>Unsecured</b>		
अच्छा माना जाता है	Considered Good	0.26	0.59
संदिग्ध माना जाता है	Considered Doubtful	-	-
		610.26	599.96
खय:- संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	Less:- Allowance for doubtful debts	8.53	-
		601.73	599.96
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>601.73</b>	<b>599.96</b>

## 22. संचालन से राजस्व

## 22. Revenue from Operations

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
अभियांत्रिकी सेवा	Engineering Services	6,963.64	9,593.49
निरीक्षण सेवाएँ	Inspection Services	2,896.77	1,910.55
कुल	TOTAL	9,860.41	11,504.04

## 23. अन्य आय

## 23. Other Income

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
एफडीआर पर ब्याज	Interest on FDR		
(i) एफडीआर पर ब्याज	(i) Interest on FDRs	523.20	556.03
(ii) आयकर रिफंड पर ब्याज	(ii) Interest on Income Tax Refund	0.71	-
किराया	Rent	9.62	9.61
विविध आय (संदर्भ नोट संख्या 23.1)	Miscellaneous Income (Ref Note No.23.1)	207.52	98.31
विदेशी मुद्रा परिवर्तन पर लाभ	Gain on Foreign Exchange Variation	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Property, Plant & Equipments	0.35	0.22
निपटान के लिए रखी गई संपत्तियों पर लाभ	Profit on Assets held for disposal	-	-
अतिरिक्त प्रावधान/क्रेडिट शेष/देनदारियाँ आदि वापस लिखा गया	Excess provision/credit balances/ liabilities etc. written back	119.26	40.02
कुल	TOTAL	860.66	704.19

23.1 विविध आय में कुल विक्रेता मेसर्स पावर बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड से कोर्ट से बाहर निपटान पर प्राप्त ₹ 116.80 लाख (उपकरण लागत ₹ 23.86 लाख, माल ढुलाई ₹ 0.75 लाख, मध्यस्थता की लागत ₹ 0.30 लाख और ब्याज ₹ 91.89 लाख) शामिल हैं।

23.1 Miscellaneous Income includes ₹ 116.80 lakhs (Equipment cost ₹23.86 lakhs, Freight ₹ 0.75 lakhs, cost of arbitration ₹ 0.30 lakhs and Interest ₹91.89 lakhs) received on out of Court settlement from a vendor M/s Power Build Pvt Ltd.

## 24. उपभोग की गई सामग्री की लागत

## 24. Cost of Materials Consumed

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
कच्चा माल	Raw Material		
आरंभिक स्टॉक	Opening Stock	44.47	44.47
खरीद	Purchases	-	-
		44.47	44.47
अंतिम भंडार	Closing Stock	44.47	44.47
कच्चे माल की खपत	Raw Material Consumed	-	-
पैकिंग के लिए सामग्री	Packing Material		
आरंभिक स्टॉक	Opening Stock	6.26	6.26
खरीद	Purchases	-	-
		6.26	6.26
अंतिम भंडार	Closing Stock	6.26	6.26
पैकिंग सामग्री की खपत	Packing Material Consumed	-	-
कुल	TOTAL	-	-

## 25. स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

## 25. Purchases of Stock-in-Trade

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	Purchases of Stock-in-Trade	-	-
कुल	TOTAL	-	-

## 26. तैयार माल, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन

## 26. Changes in Inventories of Finished Goods, Work-In-Progress and Stock-In-Trade

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
अंतिम भंडार	Closing Stock		
तैयार माल	Finished Goods	204.41	204.41
अर्द्ध - निर्मित माल	Semi Finished Goods	40.73	40.73
		245.14	245.14
आरंभिक स्टॉक	Opening Stock		
तैयार माल	Finished Goods	204.41	204.41
अर्द्ध - निर्मित सामान	Semi Finished Goods	40.73	40.73
		245.14	245.14
कुल	TOTAL	-	-

## 27. कर्मचारी लाभ व्यय

## 27. Employee Benefits Expense

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
1 मजदूरी वेतन	1 Salary & Wages		
a) वेतन, मजदूरी और अन्य लाभ	a) Salaries ,Wages & Other Benefits	5,595.04	5,815.31
b) वेतन पुनरीक्षण	b) Pay revision	-	-
c) नकदीकरण छुट्टा	c) Leave Encashment	417.87	435.98
d) चिकित्सा छुट्टी	d) Medical Leave	91.52	23.44
2 भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	2 Contribution to Provident Fund & Other Funds		
a) भविष्य निधि	a) Provident Fund	477.98	521.86
b) ईएसआई	b) ESI	0.12	0.35
c) उपादान	c) Gratuity	120.14	13.73
3 श्रमिक एवं कर्मचारी कल्याण व्यय	3 Workmen & Staff Welfare Expenses		
a) कर्मचारी कल्याण व्यय	a) Employee welfare expenditure	174.24	136.18
b) टाउनशिप व्यय	b) Township Expenses	23.28	22.54
c) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा	c) Post Retirement Medical	22.26	32.02
		6,922.45	7,001.41
			-
कुल	TOTAL	6,922.45	7,001.41

## 28. वित्तीय लागत

## 28. Finance Cost

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
वित्तीय लागत	Finance Cost	-	-
कुल	TOTAL	-	-

## 29. मूल्यहास और परिशोधन व्यय

## 29. Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
संपत्ति, पौधों और उपकरणों पर मूल्यहास	Depreciation on Property, Plants & Equipments	189.25	207.80
अमूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on Intangible Assets	14.74	14.46
कुल	TOTAL	203.99	222.26

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
रसायन, भंडार एवं पुर्जे	<b>Chemicals, Stores &amp; Spares</b>		(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)
प्रारंभिक	Opening	231.90	231.90
खरीदना	Purchase	-	-
खय: अंतिम स्टॉक	Less: Closing Stock	231.90	231.90
रसायन, भण्डार एवं पुर्जे	Chemicals, Stores & Spares Consumed	-	-
माल ढुलाई एवं हैंडलिंग	Freight & Handling	-	-
किराया	Rent	45.98	45.55
दरें एवं कर	Rates & Taxes	7.86	8.01
मशीनरी की मरम्मत	Repair to Machinery	11.39	14.61
भवन की मरम्मत	Repairs to Building	20.30	5.90
अन्य की मरम्मत	Repairs to Other	94.38	95.75
बीमा	Insurance	4.01	3.40
विज्ञापन	Advertisement	2.71	0.12
डाक टेलीग्राम और टिकटें	Postage Telegram and Stamps	2.77	3.00
मुद्रण स्टेशनरी एवं ड्राइंग कार्यालय व्यय	Printing Stationary & Drawing Office Expenses	22.87	15.38
बैंक शुल्क	Bank Charges	12.32	18.27
वाहनों एवं अन्य उपकरणों का किराया शुल्क	Hire Charges Of Vehicles & Other Equipment	138.45	180.17
यात्रा एवं वाहन	Travelling & Conveyance	213.12	198.77
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	102.58	108.96
बिजली, ईंधन, पानी और बिजली	Power, Fuel, Water & Electricity	160.41	164.02
टेलीफोन और ई-मेल व्यय	Telephone & e-Mail Expenses	66.04	70.07
जीवन निर्वाह व्यय	Living Expenses	174.06	260.45
जर्नल एवं पत्रिकाओं के लिए सदस्यता	Subscription For Journal & Periodicals	1.01	0.65
हल्के वाहनों का संचालन व्यय अन्य	Running Expenses Of Light Vehicles Other	2.28	2.80
संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान (नोट संख्या 50)	Provision for Doubtful Debts & Advances (Note No. 50)	296.24	195.45
स्टोर, कच्चे माल और तैयार स्टॉक की कमी पर प्रावधान/हानि	Provision/Loss On Shortage Of Stores, Raw Material & Finished Stock	98.55	-
प्रशिक्षण लागत	Training Cost	3.03	0.10
सॉफ्टवेयर व्यय	Software Expenses	430.02	424.71
कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय	Legal & Professional Expenses	1.71	2.60
वैधानिक लेखापरीक्षा एवं अन्य शुल्क (नोट संख्या 30.1)	Statutory Audit & Other Fees (Note no. 30.1)	3.72	3.72
वैधानिक लेखापरीक्षा व्यय (नोट संख्या 30.1)	Statutory Audit Expenses (Note no. 30.1)	1.50	1.50
यात्रा व्यय निदेशक	Travelling Expenses Director	3.99	0.70
निदेशक मंडल का बैठने का शुल्क	Sitting Fee of Board of Directors	0.70	0.20
बेची/खारिज की गई संपत्तियों पर हानि	Loss On Assets Sold/Discarded	0.74	0.36
स्वच्छता व्यय	CSR Expenses (Note no. 45)	58.84	74.82
व्यवसाय विकास व्यय	Sanitation Expenses	152.28	150.71
व्यवसाय विकास व्यय	Business Development Expenses	3.35	0.40
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय	Internal Audit Fees & Expenses	0.78	0.78
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाल दिये गये	Bad Debts Written off	1.49	-
पूर्व अवधि के व्यय (आय का शुद्ध)	Prior Period Expenses (Net of Income)	37.61	0.57
विदेशी मुद्रा परिवर्तन पर हानि	Loss on Foreign Exchange Variation	15.00	5.48
विविध व्यय	Miscellaneous Expenses	127.19	127.47
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2,319.28</b>	<b>2,185.45</b>

### 30.1 वैधानिक लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक

### 30.1 Statutory Auditor's Remuneration

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
लेखा - परिक्षण शुल्क	Audit Fees	3.00	3.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	Tax Audit Fees	0.72	0.72
प्रावधानों सहित यात्रा और जेब से खर्च	Travelling and Out of pocket Expenses including provisions	1.50	1.50
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.22</b>	<b>5.22</b>

### 31. प्रति शेयर आय

"प्रति शेयर आय" से संबंधित लेखांकन मानक-20 के अनुसार प्रति शेयर मूल आय की सूचना दी गई है, जिसकी गणना इस अवधि के लिए बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके की गई है: -

### 31. Earning per Share

Basic Earning Per Share has been reported as per Accounting Standard-20 relating to "Earning per Share", which has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of shares outstanding for the period as under:-

(₹ लाख में) (₹ In Lakhs)

विवरण	PARTICULARS	2022-23	2021-22
इक्विटी शेयरधारक के कारण वर्ष के लिए शुद्ध लाभ- (₹ लाख में)	Net profit for the year attributable to equity shareholder-(₹ in Lakhs)	358.17	1080.88
शेयरों की संख्या	No. of Shares	1,72,985	1,72,985
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	Nominal Value per share (₹)	1,000	1,000
प्रति शेयर आय	Earning per share		
बुनियादी (₹)-	Basic (₹)-	207.05	624.84
तनूकृत (₹)-	Diluted (₹)-	207.05	624.84

## आकस्मिक देनदारियाँ और अन्य प्रतिबद्धताएँ

## Contingent liabilities and Other Commitments

### 32. आकस्मिक देनदारियाँ

[₹ लाख में]

		31.03.2023 को	31.03.2022 को
a)	कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।	85.91	—
b)	तीसरे पक्ष की ओर से कंपनी द्वारा दी गई गारंटी	—	—
c)	कानूनी/श्रम मामले लंबित/विवादित	रकम निश्चित नहीं है	

### 33. अन्य प्रतिबद्धताएँ

33.1 पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और कुल मिलाकर ₹44.79 लाख (अग्रिमों का शुद्ध) [पिछले वर्ष ₹104.08 लाख (अग्रिमों का शुद्ध)] और राजस्व खाते पर निष्पादित होने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य प्रदान नहीं किया गया कुल मिलाकर ₹987.52 लाख (अग्रिम का शुद्ध) [पिछले वर्षों का ₹1026.37 (अग्रिम का शुद्ध)]

33.2 स्रोत पर काटे गए आयकर, बिक्री कर, माल और सेवा कर और अन्य वैधानिक बकाया के विलंबित भुगतान पर देय दंडात्मक ब्याज की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है, यदि आवश्यक हुआ तो प्रावधान उस वर्ष में किया जाएगा, जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन/ मांग की जाएगी।

33.3 2016-17 तक बिक्री कर का निर्धारण पूरा हो चुका है। हालाँकि बिक्री कर अधिकारियों ने वर्ष 1991-92 से 1998-99 के लिए सिंदरी डिवीजन में अतिरिक्त सीएसटी और बीएसटी के लिए ₹416.11 लाख (पिछले वर्ष ₹416.11 लाख) की मांग की थी, जमा किए गए करों पर विचार किए बिना और कथित तौर पर कुछ वर्षों में C/IX फार्म जमा न करने के लिए बनता है। कंपनी ने उक्त आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है और मांगों के खिलाफ स्थगन भी प्राप्त किया है। हालाँकि, बिक्री कर अधिकारियों द्वारा अपीलों का निपटारा होने तक, वर्ष 2004-05 में गुम हुए बिक्री कर फॉर्मों के लिए ₹27.70 लाख की राशि प्रदान की गई है।

34. उर्वरक विभाग (डीओएफ) के पत्र क्रमांक. 19021/05/2016-एफसीए दिनांक 27 दिसंबर 2016 के साथ संलग्न कार्यालय ज्ञापन सं. ओ. एम. एफ.नं. 3/21/2016-दीपम-बी दिनांक 11 नवंबर 2016, वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा पीडीआईएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की सूचना दी। लेनदेन सलाहकार (टीए), कानूनी सलाहकार (एलए) और संपत्ति मूल्यांकनकर्ता को दीपम/डीओएफ, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।

डीओएफ ने पत्र एफ नंबर 19024/01/2019-पीएसयू दिनांक 8 मार्च 2019 के जरिए वित्त मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन एफ नंबर 3/22/2016-दीपम-II-बी वॉल्यूम संलग्न किया है। वी दिनांक 27 फरवरी 2019 को सूचित किया गया कि पहले जमा की गई वित्तीय बोली खारिज कर दी गई है और डीओएफ को दो चरण की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने

### 32. Contingent liabilities

[₹ in lakhs]

		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a)	Claims against the company not acknowledged as debt.	85.91	—
b)	Guarantees given by the Company on behalf of Third Party	—	—
c)	Legal/Labour cases pending / disputed	Amount not ascertainable.	

### 33. Other Commitments

33.1 Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for aggregates to ₹44.79 lakhs (Net of advances) [previous year ₹104.08 lakhs (Net of advances)] and contracts remaining to be executed on revenue account and not Provided for aggregates to ₹987.52 lakhs (Net of Advances) [previous years ₹1026.37 Lakhs(Net of advances )]

33.2 Penal interest payable on delayed payments of Income Tax deducted at source, Sales Tax, Goods & Service Tax and other statutory dues, cannot be quantified, provision if required, will be made in the year when assessed/demanded by relevant authority.

33.3 Assessment of Sales Tax has been completed up to 2016-17. However the Sales Tax Authorities had raised demands for the year 1991-92 to 1998-99 of ₹416.11 lakhs (previous year ₹416.11 lakhs) towards additional CST and BST at Sindri Division, without considering the taxes deposited and for alleged non-submission of C/IX forms in some of the years. The Company has filed appeals against the said orders and also obtained a stay against the demands. However, pending disposal of the appeals by Sales Tax authorities, an amount of ₹27.70 lakhs towards missing Sales Tax forms has been provided in year 2004-05.

34. Department of Fertilizers (DOF) vide letter no. 19021/05/2016-FCA dated 27<sup>th</sup> December 2016 enclosing therewith O.M. F.No. 3/21/2016-DIPAM-B dated 11<sup>th</sup> November 2016 of DIPAM, Ministry of Finance informed 'in principle' approval for Strategic Disinvestment of PDIL by Government of India. Transaction Advisor (TA), Legal Advisor (LA) and Assets Valuer were appointed by DIPAM/DOF, Government of India.

DOF vide letter, F No. 19024/01/2019-PSU dated 8<sup>th</sup> March 2019, enclosing therewith Ministry of Finance Office Memorandum F No. 3/22/2016-DIPAM-II-B Vol. V dated 27<sup>th</sup> February 2019, informed that Financial bid submitted earlier has been rejected and authorized DOF to

गए रणनीतिक खरीदार को पीडीआईएल में भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया है। रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के लिए पीआईएम 14 दिसंबर, 2021 को जारी किया गया था। ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2022 थी जिसे बाद में 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। यह प्रक्रियाधीन है।

35. उर्वरक विभाग (डीओएफ) के पत्र संख्या 19021/05/2016-एफसीए (पीटी वॉल्यूम-3) दिनांक 14 जुलाई 2017 के अनुसार डी.ओ. पत्र संख्या 19021/05/2016-एफसीए (भाग) (खंड III) दिनांक 13 जुलाई 2017. डीओएफ द्वारा पीडीआईएल के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया से कैटलिस्ट प्लांट सहित सिंदरी भूमि को अलग करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, पीडीआईएल और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) ने 6 सितंबर 2017 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पीडीआईएल एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर संपत्तियों को ले जाने/निपटान करने के लिए स्वतंत्र है। एफसीआईएल छूटी हुई परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रतिफल प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। डीओएफ के पत्र संख्या 18055/10/2017-एफसीए-(भाग-II) दिनांक 8 मार्च 2018 के माध्यम से इस अवधि को तीन महीने यानी 06.06.2018 तक बढ़ा दिया गया है। पीडीआईएल के पत्र संख्या पीडीआईएल/सीएमडी/55 दिनांक 30 मई 2018 के माध्यम से दिनांक 31.08.2018 तक और विस्तार मांगा गया है और डीओएफ द्वारा पत्र संख्या 18055/10/2017-एफसीए-भाग- II दिनांक 19 जून 2018 के माध्यम से इसकी अनुमति दी गई थी। सिंदरी में स्थित इमारतें एफसीआईएल के नाम पर पंजीकृत भूमि पर हैं और भूमि का मूल्य 'शून्य' माना गया है।

उक्त एमओयू के अनुपालन में, सिंदरी इकाई की अचल संपत्ति, जिसका सकल मूल्य ₹2639.96 लाख और शुद्ध मूल्य ₹151.10 लाख है, 30.04.2019 को बिना विचार किए एफसीआईएल को सौंप दी गई है। लेखांकन मानक - 4 'बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं' के अनुरूप, लेनदेन वित्तीय वर्ष 2018-19 में दर्ज किया गया है। वर्ष 2018-19 में ₹151.10 लाख के शुद्ध मूल्य को 'अन्य व्यय' मद के तहत व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

36. व्यापार प्राप्त, व्यापार देय, ऋण और अग्रिम, सुरक्षा जमा और अन्य देनदारियों के अंतर्गत आने वाले कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन हैं।
37. लेखांकन मानक (एएस)-29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति" में बताया गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता वाली कोई वर्तमान बाध्यता नहीं है।
38. एएस-7 के अनुसार जानकारी: डिजाइन इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं के अनुबंधों के संबंध में निर्माण अनुबंधों के लिए लेखांकन:

[₹ लाख में]

		31.03.2023	31.03.2022
A.	अनुबंध राजस्व को अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई।	3135.49	3005.40
B.	प्रगतिरत अनुबंधों के संबंध में:		
	i) 31.3.2023 तक अनुबंध की लागत और मान्यता प्राप्त लाभ (मान्य हानि घटाकर)	22701.48	19924.76

initiate the process for disinvestment of 100% shareholding of Government of India in PDIL to strategic buyer identified through a two stage auction process. PIM for the process of strategic disinvestment was issued on December 14, 2021. The last date for submitting EOI was January 31, 2022 which was later extended till February 28, 2022. The same is under process.

35. In pursuant to the Department of Fertilizers (DOF) letter No. 19021/05/2016-FCA(pt. Vol-3) dated 14<sup>th</sup> July 2017 enclosing therewith D.O. letter No. 19021/05/2016-FCA(Part)(Vol.III) dated 13<sup>th</sup> July 2017 whereby it was decided by DOF to hive off Sindri Land along with Catalyst Plant from the process of strategic disinvestment of PDIL. Accordingly, PDIL and Fertilizer Corporation India Limited (FCIL) has assigned Memorandum of Understanding (MOU) dated 6<sup>th</sup> September 2017 wherein PDIL is free to carry/dispose off assets within 180 days from the date of signing MOU and FCIL shall not be liable to provide any consideration for the left out assets. This period has been extended by three months i.e. till 06.06.2018 vide DOF letter No. 18055/10/2017-FCA-(Part-II) dated 8<sup>th</sup> March 2018. Further extension has been sought till 31.08.2018 vide PDIL letter no. PDIL/CMD/55 dated 30<sup>th</sup> May 2018 and the same was allowed by DOF vide letter No. 18055/10/2017-FCA-Part-II dated 19<sup>th</sup> June 2018. Buildings located at Sindri are on land registered in the name of FCIL and the land value was taken as 'NIL'.

In compliance of the said MoU, the fixed assets of Sindri unit having Gross Value ₹2639.96 Lakhs and Net Value ₹151.10 Lakhs has been handed over to FCIL on 30.04.2019, without consideration. In line with Accounting Standard - 4 'Contingencies and Events Occurring after the Balance Sheet Date', the transaction has been recorded in the Financial Year 2018-19. The Net Value of ₹151.10 Lakhs has been recognized as expenditure under the head 'Other Expenses' in the year 2018-19.

36. Some of the balances appearing under Trade Receivables, Trade Payables, Loans & Advances, Security Deposit and other liabilities are subject to confirmation / reconciliation.
37. There are no present obligations requiring provisions in accordance with the guiding principles as enunciated in Accounting Standards (AS)-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".
38. Information pursuant to AS-7: accounting for Construction contracts in respect of contracts for Design Engineering and Project Management Consultancy Services:

[₹ in Lakhs]

		31.03.2023	31.03.2022
A.	Contract revenue recognized as revenue in the period.	3135.49	3005.40
B.	In respect of contracts in progress:		
	i) Contract costs incurred and recognized profits (less recognized losses) upto 31.3.2023.	22701.48	19924.76

		31.03.2023	31.03.2022
ii)	प्राप्त अग्रिम	-	-
iii)	प्रतिधारण	-	-
iv)	ग्राहकों पर बकाया कुल राशि	2918.22	2665.17
v)	ग्राहकों को देय कुल राशि	260.57	183.21

c. वित्तीय विवरणों के नोट्स (नोट्स-1) के खंड बी के पैरा (1) के अनुसार अनुबंधों के पूरा होने की अवधि और चरण में अनुबंध राजस्व मान्यता निर्धारित करने की विधि।

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक धारा के तहत अधिसूचित "संपत्ति की हानि" पर लेखांकन मानक (एएस) -28 के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि और अमूर्त संपत्तियों की वर्ष के अंत में समीक्षा की गई है और वर्ष 2022-23 के दौरान ₹22.22 लाख (पिछले वर्ष-शून्य) की हानि हुई है।

#### 40. कर्मचारी लाभ

40.1 AS-15 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार लेखांकन मानक में परिभाषित कर्मचारी लाभ का खुलासा नीचे दिया गया है।

##### a) परिभाषित योगदान योजना

परिभाषित योगदान योजना में योगदान, जिसे वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, इस प्रकार हैं:

विवरण	31.03.2023 (₹ लाख में)	31.03.2022 (₹ लाख में)
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	434.50	475.35
पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान	43.48	46.51
सेवानिवृत्ति में नियोक्ता का योगदान	-	-
ईएसआई में नियोक्ता का योगदान	0.12	0.35

##### b) परिभाषित लाभ योजना

कर्मचारियों की ग्रेच्युटी फंड योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को जन्म देने के रूप में पहचानता है और अंतिम दायित्व बनाने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। अवकाश नकदीकरण की बाध्यता को ग्रेच्युटी की तरह ही मान्यता दी जाती है।

		31.03.2023	31.03.2022
ii)	Advances Received	-	-
iii)	Retentions	-	-
iv)	Gross amount due from customers	2918.22	2665.17
v)	Gross amount due to customers	260.57	183.21

c. The method to determine the contract revenue recognition in the period & stage of completion of contracts in progress as per Para (1) of clause B of Notes to Financial Statements (Notes-1).

39. In accordance with Accounting Standard (AS)-28 on "Impairment of Assets" notified under the relevant section of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the carrying amount of Property, Plant & Equipment and Intangible Assets have been reviewed at year end and there is impairment Loss of ₹22.22 lakhs (Previous Year-NIL) during the year 2022-23.

#### 40. Employee Benefits

40.1 As per AS-15 'Employee Benefits' the disclosure of Employee Benefit as defined in Accounting Standard are given below.

##### a) Defined Contribution Plan

Contributions to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

Description	31.03.2023 (₹ in Lakhs)	31.03.2022 (₹ in Lakhs)
Employer's contribution to Provident Fund	434.50	475.35
Employer's contribution to Pension Scheme	43.48	46.51
Employer's contribution to Superannuation	0.12	0.35
Employer's contribution to ESI	-	-

##### b) Defined Benefit Plan

The employees' gratuity fund scheme is a Defined Benefit Plan. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The obligation for leave encashment is recognized in the same manner as gratuity.



1. परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के प्रारंभिक और समापन शेष का समाधान

Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation (DBO)

विवरण Particulars	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) (लाख रूपये में) Gratuity (Funded) (₹ in Lakhs)		अर्जित अवकाश (अनिधिक) (लाख रूपये में) Earned Leave (Unfunded) (₹ in Lakhs)		आधा वेतन अवकाश (अनिधिक) (लाख रूपये में) Half Pay Leave (Unfunded) (₹ in Lakhs)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
	वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व Defined Benefit Obligation at the beginning of the year	2068.22	2094.74	1361.81	1483.19	651.80
अधिग्रहण समायोजन Acquisition adjustment	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत Interest Cost	149.33	142.44	98.32	100.86	47.06	44.67
पिछली सेवा लागत Past Service Cost	-	-	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	96.59	103.20	84.62	94.50	39.92	38.47
लाभ का भुगतान किया गया Benefits Paid	(288.35)	(159.98)	(512.62)	(557.36)	(40.40)	(28.59)
बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (gain)/loss	(1.06)	(112.18)	234.93	240.62	4.54	(59.70)
निपटान लागत Settlement cost	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में डी.बी.ओ. DBO at the end of the year	2024.72	2068.22	1267.06	1361.81	702.92	651.80

2. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का समाधान

Reconciliation of opening and closing balances of Fair Value of Plan Assets

विवरण Particulars	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) (₹ लाख में) Gratuity (Funded) (₹ in Lakhs)	
	2022-23	2021-22
	वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at the beginning of the year	2087.56
अपेक्षित आय Expected Return	150.72	128.93
बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss)	(18.65)	(1.85)
नियोक्ता द्वारा योगदान Contribution by Employer	0.71	224.28
पिछले वर्ष का निधि समायोजन Earlier Year's Fund Adjustment	-	-
लाभ का भुगतान किया गया Benefits Paid	(288.35)	(159.98)
फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) Fund Management Charges (FMC)	(8.05)	(8.04)
निपटान लागत Settlement cost	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at the end of the year	1931.99	2087.56
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न Actual return on plan assets	132.07	127.09

### 3. तुलन पत्रक में मान्यता प्राप्त राशि का मिलान

#### Reconciliation of amount recognized in Balance Sheet

विवरण Particulars	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) (लाख रुपये में) Gratuity (Funded) (₹ in Lakhs)		अर्जित अवकाश (अनिधिक) (लाख रुपये में) Earned Leave (Unfunded) (₹ in Lakhs)		आधा वेतन अवकाश (अनिधिक) (लाख रुपये में) Half Pay Leave (Unfunded) (₹ in Lakhs)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets	1931.99	2087.56	-	-	-
दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of obligation	2024.72	2068.22	1267.06	1361.81	702.92	651.80
तुलन पत्रक में निवल परिसंपत्ति / (देयता) को मान्यता दी गई है Net asset / (liability) recognized in the Balance Sheet	(92.73)	19.34	(1267.06)	(1361.81)	(702.92)	(651.80)

### 4. लाभ और हानि के विवरण में अवधि के दौरान व्यय को मान्यता दी गई

#### Expense Recognized during the period in Statement of Profit & Loss.

विवरण Particulars	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) (लाख रुपये में) Gratuity (Funded) (₹ in Lakhs)		अर्जित अवकाश (अनिधिक) (लाख रुपये में) Earned Leave (Unfunded) (₹ in Lakhs)		आधा वेतन अवकाश (अनिधिक) (लाख रुपये में) Half Pay Leave (Unfunded) (₹ in Lakhs)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
	ब्याज लागत Interest Cost	149.33	142.44	98.32	100.86	47.06
वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	96.59	103.20	84.62	94.50	39.92	38.47
पिछली सेवा लागत Past Service Cost	-	-	-	-	-	-
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ Expected return on plan assets	(150.72)	(128.94)	-	-	-	-
अवधि के दौरान शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि की पहचान की गई Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the period	17.59	(110.33)	234.93	240.62	4.54	(59.70)
लाभ और हानि के विवरण में व्यय को मान्यता दी गई Expenses recognized in the statement of Profit & Loss	112.78	6.37	417.87	435.98	91.52	23.44

### 5. योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न

#### Actual Return on Plan Assets

विवरण Particulars	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) (लाख रुपये में) Gratuity (Funded) (₹ in Lakhs)	
	2022-23	2021-22
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ Expected Return on Plan Assets	150.72	128.94
बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (gain)/ loss	1.86	1.85
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न Actual return on plan assets	132.07	127.09

## 6. प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ

### Principal Actuarial Assumptions

विवरण Particulars	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) (लाख रूपये में) Gratuity (Funded)	अर्जित अवकाश (अनिधिक) (लाख रूपये में) Earned Leave (Unfunded)	आधा वेतन अवकाश (अनिधिक) (लाख रूपये में) Half Pay Leave (Unfunded)
मृत्यु तालिका (एलआईसी) Mortality Table (LIC)	(IALM)2012-14	(IALM)2012-14	(IALM)2012-14
छूट दर Discounting Rate	7.38 %	7.38 %	7.38 %
भविष्य में वेतन वृद्धि Future Salary Increase	6.00%	6.00 %	6.00 %
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दर Expected rate of return on plan assets	7.38 %	-	-
सेवानिवृत्ति की उम्र Retirement Age	60 वर्ष/ years	60 वर्ष/ years	60 वर्ष/ years
निकासी दरें Withdrawal Rates			
30 वर्ष तक Upto 30 years	3.00 %	3.00 %	3.00 %
31 से 44 वर्ष तक From 31 to 44 years	2.00 %	2.00 %	2.00 %
44 वर्ष से ऊपर Above 44 years	1.00 %	1.00 %	1.00 %

बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग सहित अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। बीमांकिक उपरोक्त जानकारी को प्रमाणित करता है।

- c) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना को निदेशक मंडल और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, योजना के अनुसार कुल राशि ₹22.26 लाख (पिछले वर्ष ₹32.02 लाख) जो कि 2021-22 के पीबीटी का 1% है और कॉर्पस पर ब्याज केवल चालू वर्ष में प्रदान किया गया है।
- d) अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) नकदीकरण को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के समय एचपीएल का नकदीकरण इस शर्त के अधीन है कि अर्जित अवकाश (ईएल) और एचपीएल एक साथ 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो, 27.6.2017 से लागू किया गया है।

ईएल में कमी को पूरा करने के लिए एचपीएल में किसी भी तरह की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### 41. संबंधित पक्ष के खुलासे:-

कंपनी भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और लेखांकन मानक (एएस) -18 के पैरा 9 के राज्य नियंत्रित उद्यमों के अर्थ के अंतर्गत है।

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The actuary certifies the above information.

- c) The Post Retirement Medical Benefits Scheme was approved by the Board of Directors and Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Govt. of India. Accordingly, total amount of ₹22.26 Lakhs (Previous Year ₹32.02 Lakhs) being 1% of PBT of 2021-22 and interest on corpus have only been provided in the Current Year as per the scheme.
- d) Half Pay Leave (HPL) encashment was approved by the Board of Directors. Accordingly, encashment of HPL at the time of retirement/superannuation subject to the condition that Earned Leave (EL) and HPL together does not exceed the maximum ceiling of 300 days has been implemented w.e.f. 27.6.2017.

No commutation of HPL shall be allowed to make up for the shortfall in EL.

#### 41. Related Party Disclosures:-

Company is under administrative control of Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India and within the meaning of state controlled enterprises of para 9 of Accounting Standards (AS)-18.

## A. संबंधित पक्षों और संबंधों की सूची

### List of Related Parties & Relationships

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| a)  | उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से रिपोर्टिंग उद्यम को नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित करते हैं या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में हैं (इसमें होल्डिंग कंपनियां, सहायक कंपनियां और साथी सहायक कंपनियां शामिल हैं)।<br>Enterprises that directly or indirectly through one or more intermediaries, control or are controlled by or are under common control with the reporting enterprise (this includes holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries). | कोई नहीं<br>None |
| b)  | सहयोगी और संयुक्त उद्यम<br>Associates and joint ventures   | कोई नहीं<br>None |
| c)  | प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, रिपोर्टिंग उद्यम की वोटिंग शक्ति में अधिकार रखने वाले व्यक्ति जो उन्हें उद्यम पर नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, और ऐसे किसी भी व्यक्ति के रिश्तेदार।<br>Individuals owning directly or indirectly, an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives them control or significant influence over the enterprise, and relatives of any such individual.   | कोई नहीं<br>None |
| d)  | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार<br>Key Management Personnel and their relatives   |                  |
| i.  | सुश्री अनीता सी मेश्राम, संयुक्त सचिव (एएस) उर्वरक विभाग (डीओएफ) और 01.11.2022 से आज तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीडीआईएल का अतिरिक्त प्रभार<br>Ms. Aneeta C Meshram, Joint Secretary (AS) Department of Fertilizers (DoF) and Additional Charge of Chairman & Managing Director, PDIL w.e.f 01.11.2022 till date  |                  |
| ii. | सुश्री नजहत जे. शेख, निदेशक (वित्त), आरसीएफ और 04.02.2022 से आज तक निदेशक (वित्त), पीडीआईएल का अतिरिक्त प्रभार<br>Ms. Nazhat J. Shaikh, Director (Finance), RCF and Additional Charge of Director (Finance), PDIL w.e.f 04.02.2022 till date   |                  |
| e)  | उद्यम जिन पर (C) या (D) में वर्णित कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है।<br>Enterprises over which any person described in (c) or (d) is able to exercise significant influence.  | कोई नहीं<br>None |

(₹ लाख में)

## B व्यवसाय के सामान्य क्रम में संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए गए/बकाया गए

The following transactions were carried out / outstanding with related parties in the ordinary course of business

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | ऊपर (a), (b) एवं (c) में उल्लिखित पार्टियों के साथ।<br>With parties referred to in (a), (b) and (c) above. | शून्य<br>NIL |
| 2. | ऊपर (d) में उल्लिखित पक्षों के साथ।<br>With parties referred to in (d) above.                              | शून्य<br>NIL |

## 42. खंड रिपोर्टिंग

लेखांकन मानकों (एएस-17) "सेगमेंट रिपोर्टिंग" के अनुरूप कंपनी के संचालन में केवल एक खंड अर्थात कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं।

43. डीओएफ द्वारा तय किए गए अनुसार पीडीआईएल और एफसीआईएल के बीच हस्ताक्षरित 6 सितंबर 2017 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुपालन में बिना किसी विचार के पीडीआईएल, सिंदरी में क्वार्टर 28.02.2019 को एफसीआईएल, सिंदरी को सौंप दिए गए थे।

## 42. Segment Reporting

In line with Accounting Standards (AS-17) "Segment Reporting" the company operations comprise of only one segment viz Consultancy & Engineering Projects.

43. The quarters at PDIL, Sindri were handed over to FCIL, Sindri on 28.02.2019 without any consideration in compliance of Memorandum of Understanding (MOU) dated 6<sup>th</sup> September 2017 signed between PDIL and FCIL as decided by DoF.

#### 44. आयकर आकलन

आकलन वर्ष 2022-23 तक आयकर आकलन पूरा हो चुका है। आकलन वर्ष 2017-18 तक और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए पूरा रिफंड प्राप्त हो गया है। आकलन वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए आंशिक रिफंड प्राप्त हो गए हैं। इस मामले पर आयकर प्राधिकरण के साथ कार्रवाई की जा रही है।

आयकर रिफंड का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

#### 44. Income Tax Assessments.

Income Tax Assessments have been completed upto Assessment Year 2022-23. Full Refund has been received upto Assessment Year 2017-18 and for Assessment Year 2022-23. Part Refunds have been received for the Assessment Year 2018-19 and 2019-20. The matter is being followed up with Income Tax Authority.

Year-wise details of Income Tax Refunds are as under:

(₹ लाख में)/ (₹ in Lakhs)

वर्ष AY	आईटीआर के अनुसार रिफंड Refund as per ITR	प्राप्त रिफंड Refund Received	अस्वीकृतियों/मांगों के लिए समायोजन Adjustment for disallowances /demands	रिफंड मिलना है Refund to be received	टिप्पणी Remarks
2018-19	658.79	381.01	-	277.78	आयकर विभाग द्वारा धारा 43बी के तहत बेमेल और धारा 43बी के अलावा धारा 36 के तहत दोहरी कटौती के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। धारा 154 के तहत सुधार अनुरोध 27.11.2019 को दायर किया गया है और आयकर प्राधिकरण के समक्ष पेश होने के लिए पीडीआईएल की ओर से एम.डी. गुजराती एंड कंपनी को नियुक्त किया गया है। Disallowed by Income Tax Department on account of mismatch u/s 43B and double deduction u/s 36 in addition to section 43B. Rectification request u/s 154 has been filed 27.11.2019 and M.D. Gujrati & Co. has been appointed on behalf of PDIL to appear before Income Tax Authority
2019-20	293.48	19.42	9.68	264.38	लाभांश वितरण कर (डीडीटी) हमारे चालान क्रमांक 36328 दिनांक 07/10/2019 द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के माध्यम से नियत तिथि के भीतर पीडीआईएल द्वारा जमा कर दिया गया है। हालाँकि, आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1) के तहत मूल्यांकन आदेश के समय डीडीटी की राशि पहले से ही जमा की गई राशि पर विचार किए बिना काट ली गई है। Dividend Distribution tax (DDT) has been deposited by PDIL within due date vide our Challan Serial No.36328 dated 07/10/2019 through IDBI Bank Limited. However, amount of DDT has been deducted by Income Tax Department at the time of assessment order u/s 143(1) without considering amount already deposited towards DDT.
2020-21	145.36	142.84	2.52	-	
2021-22	88.11	76.73	11.38	-	
2022-23	674.21	-	9.09	665.12	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त रिफंड Refund Received during the year Financial Year 2023-24

## 45. सीएसआर व्यय

### CSR Expenditure

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

A.	विवरण Particulars	2022-23	2021-22
	कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि Gross amount required to be spent by the company	58.84	74.82

### B. वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय की गई राशि :

Amount spent during the year 2022-23 on:

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

	विवरण Particulars	नकद भुगतान किया Paid in cash	नकद भुगतान किया जाना है Yet to be paid in cash	कुल Total
(i)	किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण Construction / acquisition of any asset	0.00	0.00	0.00
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर On purposes other than (i) above	25.00	33.84	58.84

### वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय की गई राशि:

Amount spent during the year 2021-22 on:

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

	विवरण Particulars	नकद भुगतान किया Paid in cash	नकद भुगतान किया जाना है Yet to be paid in cash	कुल Total
(i)	किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण Construction / acquisition of any asset	0.00	0.00	0.00
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर On purposes other than (i) above	0.00	0.00	0.00

### C. वर्ष के दौरान व्यय और अव्ययित का संचलन

Movement of spent and Unspent during the year

(₹ लाख में) (₹ in Lakhs)

	विवरण Particulars	2022-23	2021-22
	अव्ययित/(अतिरिक्त) राशि प्रारंभ Opening unspent/(excess) amount	74.82	0.00
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय किया जाना है Addition to be spent during the year	58.84	74.82
	वर्ष के दौरान खर्च किया गया Spent during the year	99.82	0.00
	अव्ययित/(अतिरिक्त) राशि का समापन Closing Unspent/(Excess) Amount	33.84	74.82

### D. उपरोक्त कमी का कारण (अव्ययित राशि)

Reason for above shortfalls (Unspent Amount)

कंपनी ने डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.नंबर 8/00002/2018-डीआईआर (सीएसआर) दिनांक 5 अप्रैल 2022 के अनुसार सामान्य विषय "स्वास्थ्य और पोषण" के अनुपालन के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत संस्थानों के साथ विभिन्न पहल की और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

The Company took various initiatives and signed MoUs with the institutions for under taking CSR activities to comply with common theme "Health & Nutrition" as per DPE Office Memorandum No.F.No. 8/00002/2018-Dir(CSR) dated 5th April,2022.

### E. कंपनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति

The nature of CSR activities undertaken by the Company.

वर्ष 2022-23 के दौरान पीएम केयर्स फंड में 25 लाख रुपये का योगदान।

Contribution of Rs.25 Lakhs to PM Cares Fund during the year 2022-23.

F	सीएसआर के संबंध में संबंधित पार्टी लेनदेन का व्यय विवरण: Expenditure Details of Related Party Transaction in relation to CSR :	शून्य NIL
G	The shortfall amount (i.e. unspent amount), in respect of other than ongoing projects, transferred to a Fund specified in Schedule VII to the Act, as per section 135(5) of the Companies Act; कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कमी की राशि (अर्थात् अव्ययित राशि), अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की गई; The shortfall amount (i.e. unspent amount), in respect of other than ongoing projects, transferred to a Fund specified in Schedule VII to the Act, as per section 135(5) of the Companies Act;	शून्य NIL
H	कंपनी अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार किसी भी चालू परियोजना के तहत कमी की राशि (अर्थात् अव्ययित राशि) को विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। The shortfall amount (i.e. unspent amount), pursuant to any ongoing project, transferred to special account as per section 135(6) of the Companies Act. अप्रैल 2023 के महीने में, 31.3.2023 को किसी भी चल रहे प्रोजेक्ट के अनुसार ₹33.84 लाख की कमी की राशि (यानी अव्ययित राशि) को केनरा बैंक ऑफ इंडिया में खोले गए एक अलग बैंक खाते, जिसका नाम "प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड - अव्ययित सीएसआर खाता" है, में स्थानांतरित कर दिया गया था। ₹2.79 लाख का भुगतान बाद में जारी किया गया है और शेष राशि उचित समय पर उक्त खाते से जारी की जाएगी। The shortfall amount (i.e. unspent amount) of ₹33.84 lakhs, pursuant to any ongoing project, as on 31.3.2023, was transferred to a separate Bank account namely "Projects & Development India Ltd - Unspent CSR Account" opened at Canara Bank of India in the month of April 2023. A payment of ₹2.79 Lakhs has been released subsequently and the balance shall be released from said account in due course	NIL

#### 46. सरकारी अनुदान

##### Government Grants

सरकारी अनुदान का विवरण इस प्रकार है [पिछले वर्ष का आंकड़ा (₹.) ]

The detail of Government Grants are as under [previous Year's Figure in (₹.) ]

क्रम संख्या SI No	परियोजना का नाम Name of Project	प्रारंभिक जमा Opening Balance	वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी अनुदान Grant released by Govt. during the year	वर्ष के दौरान उपयोग किया गया अनुदान/वापसी Grant utilized/ refund during the year	जमा शेष Closing Balance	टिप्पणियाँ Notes
1	ताजा खर्च किए गए उत्प्रेरक की तैयारी के लिए कच्चे माल के रूप में खर्च किए गए एचटी उत्प्रेरक का उपयोग Use of Spent HT Catalyst as Raw Material for preparation of fresh spent catalyst	28.08 (28.08)	शून्य Nil (शून्य) Nil	शून्य Nil (शून्य) Nil	28.08 (28.08)	10 (अन्य वर्तमान देनदारियाँ) 10 (Other Current Liabilities)
2	एलटी शिफ्ट रूपांतरण उत्प्रेरक की सुरक्षा के लिए क्लोरीन गार्ड उत्प्रेरक। Chlorine Guard Catalyst for Protection of LT Shift Conversion Catalyst.	6.92 (6.92)	शून्य Nil (शून्य) Nil	शून्य Nil (शून्य) Nil	6.92 (6.92)	10 (अन्य वर्तमान देनदारियाँ) 10 (Other Current Liabilities)
3	सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन के लिए सीज़ियम डोपेड कम तापमान वाले सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण उत्प्रेरक का विकास Development of Cesium Doped Low Temperature Sulphur Dioxide Oxidation Catalyst for Sulphuric acid production	-43.53 (-43.53)	शून्य Nil (शून्य) Nil	शून्य Nil (शून्य) Nil	-43.53# (-43.53)#	21 (अन्य चालू परिसंपत्तियाँ) 10 (Other Current Liabilities)
	कुल TOTAL	-8.53 (-8.53)	शून्य Nil (शून्य) Nil	शून्य Nil (शून्य) Nil	-8.53 (-8.53)	

# भारत सरकार ने पत्र संख्या 15061/1/2014-एफपी दिनांक 26.08.2014 के माध्यम से ₹ 69.96 लाख का अनुदान स्वीकृत किया है।

# Govt. of India has sanctioned grant of ₹ 69.96 Lakhs vide letter No.15061/1/2014-FP dated 26.08.2014.

#### 47. असाधारण वस्तुएँ

पीएफ का कर्मचारी लाभ छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट, अर्थात् 'ट्रस्टीज प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, कर्मचारी भविष्य निधि, सिंदरी' के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। उक्त योजना के पैरा 27एए के तहत परिशिष्ट-ए के बिंदु संख्या 28 के तहत ईपीएस योजना, 1952 में निर्दिष्ट छूट के नियमों और शर्तों के अनुसार, कंपनी ने डीएचएफएल की प्रतिभूतियों में ₹0 की हानि की भरपाई की है। (पिछले वर्ष ₹317.92 लाख)।

48. 31.03.2023 तक बकाया ₹1440.96 लाख (पिछले वर्ष ₹1647.42 लाख) की विभिन्न देनदारियों के लिए कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी।
49. 31.03.2023 तक बकाया ₹736.10 लाख (पिछले वर्ष ₹736.10 लाख) की विभिन्न देनदारियों के लिए मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को कॉर्पोरेट गारंटी दी गई।
50. संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते पर लेखांकन नीति संख्या बी-3 में परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए लाभ ₹13.39 लाख (पिछला वर्ष -शून्य) कम हो गया है।

#### 47. Exceptional Items

The Employees benefit of PF is administered through the exempted PF Trust, namely 'Trustees Projects & Development India Limited, Employees Provident Fund, Sindri'. In accordance with the terms & conditions of exemption as specified in EPS Scheme, 1952 vide Point No.28 to the Appendix-A under Para 27AA of the said scheme, the Company has made good the loss in the securities of DHFL amounting to ₹ Nil (Previous Year ₹317.92 Lakhs).

48. Bank Guarantees issued by bank on behalf of the company for various obligations amounting to ₹1440.96 lakhs (Previous Year ₹1647.42 Lakhs) outstanding as on 31.03.2023.
49. Corporate Guarantees given to M/s Hindustan Urvarak & Rasayan Limited for various obligations amounting to ₹736.10 lakhs (Previous Year ₹736.10 Lakhs) outstanding as on 31.03.2023.
50. The profit for the year is decreased by ₹13.39 Lakhs (Previous Year-NIL) on account of change in the Accounting Policy No.B-3 on Allowance for Doubtful Debts.



51. महत्वपूर्ण अनुपात

51. Significant Ratios

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars	न्यूमेरेटर Numerator	डिनोमिनेटर Denominator	₹ लाखों में ₹ in lakhs		% विचरण % variance	भिन्नता के कारण Reasons for variance
				2022-23	2021-22		
(ए) (a)	वर्तमान अनुपात (समय) Current Ratio (Times)						
		वर्तमान संपत्ति Current Assets		17930.97	19047.46		आयकर प्रावधानों और व्यापार देय में कमी के कारण Due to reduction in income tax provisions and trade payable
			वर्तमान देनदारियां Current Liabilities	3478.78	6826.3		
	वर्तमान अनुपात Current ratio			5.15	2.79	84.72%	
(बी) (b)	ऋण इक्विटी अनुपात Debt Equity Ratio	कंपनी पर कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं है और इसलिए ये अनुपात लागू नहीं हैं The Company does not have any long term debts and hence these ratios are not applicable					
(सी) (c)	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात Debt Service Coverage Ratio						
(डी) (d)	इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) (%) Return on Equity (ROE) (%)						
		करों के बाद शुद्ध लाभ Net Profits after taxes		358.17	1080.88		पीएटी में कमी के कारण Due to reduction in PAT
			प्रारंभिक शेयर पूंजी Opening Share Capital	1729.85	1729.85		
			समापन शेयर पूंजी Closing Share Capital	1729.85	1729.85		
			औसत शेयरधारक इक्विटी Average shareholder Equity	1729.85	1729.85		
	इक्विटी में रिटर्न			20.71%	62.48%	-66.86%	
(ई) (e)	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात Inventory Turnover Ratio	कंपनी के पास कोई विनिर्माण इकाई नहीं है और इसलिए यह अनुपात लागू नहीं है The Company does not have any Manufacturing Unit and hence this ratio is not applicable					
(एफ) (f)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय) Trade Receivables Turnover Ratio (Times)						
		शुद्ध ऋण बिक्री Net Credit Sales		9860.41	11504.04		
			आरंभिक व्यापार प्राप्य Opening Trade Receivable	7824.66	7935.15		
			समापन व्यापार प्राप्य Closing Trade Receivable	7838.60	7824.66		
			औसत प्राप्य खाते Average Accounts Receivable	7831.63	7879.91		
	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात Trade Receivables Turnover Ratio			1.26	1.46	-13.76%	
(जी) (g)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय) Trade Payables Turnover Ratio (Times)						
		शुद्ध ऋण खरीद Net Credit Purchases		2478.91	2714.13		
			आरंभिक व्यापार देय Opening Trade Payables	959.62	687.42		
			समापन व्यापार देय Closing Trade Payables	671.32	959.62		
			औसत व्यापार देय Average Trade Payables	815.47	823.52		
	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात Trade Payables Turnover Ratio			3.04	3.30	-7.76%	

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars	न्यूमेरेटर Numerator	डिनोमिनेटर Denominator	₹ लाखों में ₹ in lakhs		% विचरण % variance	भिन्नता के कारण Reasons for variance
				2022-23	2021-22		
(एच) (h)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (टाइम्स) Net capital Turnover Ratio (Times)						
	कुल बिक्री Net Sales			9860.41	11504.04		
			आरंभिक कार्यशील पूंजी Opening Working Capital	12221.16	12245.45		
			समापन कार्यशील पूंजी Closing Working Capital	14452.19	12221.16		
			औसत कार्यशील पूंजी Average Working Capital	13336.68	12233.31		
	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात Net capital Turnover Ratio			0.74	0.94	-21.38%	
(आई) (i)	शुद्ध लाभ अनुपात (%) Net Profit Ratio (%)						
	शुद्ध लाभ Net Profit	शुद्ध बिक्री Net Sales		358.17 9860.41	1080.88 11504.04		परिचालन आय में कमी के कारण
	शुद्ध लाभ अनुपात Net Profit Ratio			3.63%	9.40%	-61.34%	Due to reduction in operational income
(जे) (j)	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) Return on Capital Employed (%)						
	ब्याज और करों से पहले कमाई Earning before interest & Tax			458.75	1484.29		परिचालन आय में कमी के कारण
			व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन Capital Employed	17451.17	17295.39		Due to reduction in operational income.
	नियोजित पूंजी पर रिटर्न Return on Capital Employed			2.63%	8.58%	-69.37%	
(के) (k)	निवेश पर रिटर्न Return on investment	कंपनी के पास कोई सूचीबद्ध निवेश नहीं है और इसलिए यह अनुपात लागू नहीं है The Company does not have any Listed Investment and hence this ratio is not applicable					

## 52. अतिरिक्त जानकारी

## 52. Significant Ratios

### स्टॉक:

एमटी में माप की इकाइयाँ

### STOCKS :

Units of Measurement in MT

	माल की श्रेणी		Class of goods	क्लोजिंग स्टॉक 31.03.2023 तक Closing Stock as on 31.03.2023		क्लोजिंग स्टॉक 31.03.2022 तक Closing Stock as on 31.03.2022	
				मात्रा एम.टी. Qty M.T.	कीमत (₹/लाख) Value (₹/Lakhs)	मात्रा एम.टी. Qty M.T.	कीमत (₹/लाख) Value (₹/Lakhs)
1	एच.टी. कैटालिस्ट	1	H.T. CATALYST				
ए.	एच. टी. कंपनी कन्वर्जन कैटालिस्ट	a.	H. T. Co. Conv. Catalyst	29.000	80.37	29.000	80.37
बी.	वैनेडियम पेंटोक्साइड कैटालिस्ट	b.	Vanadium Pentoxide Cat.	5.932	10.27	5.932	10.27
2	निकल कैटालिस्ट	2	NICKEL CATALYST				
ए.	रिफॉर्मेशन कैटालिस्ट	a.	Reformation Catalyst	25.990	58.50	25.990	58.50
बी.	मेथेनेशन कैटालिस्ट	b.	Methanation Catalyst	4.658	19.57	4.658	19.57
सी.	एलुमिना बॉल्स/सक्रिय एलुमिना*	c.	Alumina Balls/Active Aluamina*	3.293	2.89	3.293	2.89
3	एल.टी. कैटालिस्ट	3	L.T. CATALYST				
a.	एल. टी. कंपनी कन्वर्जन कैटालिस्ट	a.	L. T. Co. Conv. Catalyst	6.995	25.13	6.995	25.13
b.	डिहाइड्रोजिनेशन कैटालिस्ट	b.	Dehydrogenation Catalyst	3.000	5.00	3.000	5.00
c.	ज़िंक ऑक्साइड कैटालिस्ट	c.	Zincoxide Catalyst	2.000	2.51	2.000	2.51
d.	थर्मोबॉन्ड	d.	Thermobond	-	-	-	-
e.	सोडियम नाइट्रेट	e.	Sodium Nitrate	-	-	-	-
4	एनओएक्स कैटालिस्ट	4	NOX Catalyst	0.100	0.17	0.100	0.17
5	आयरन ऑक्साइड	5	Iron Oxide	-	-	-	-
6	कार्यशाला उपकरण	6	Workshop Equipments				
	कुल		Total	80.968	204.41	80.968	204.41
	अतिरिक्त: एक्साइज ड्यूटी		Add: Excise Duty				
				80.968	204.41	80.968	204.41

53. अन्य अतिरिक्त जानकारी

53. Other Additional information

				चालू वर्ष 2022-23 Current year 2022-23		पिछला वर्ष 2021-22 Previous year 2021-22	
				₹/लाख ₹ /Lakhs	₹/लाख ₹ /Lakhs	₹/लाख ₹ /Lakhs	₹/लाख ₹ /Lakhs
(ए)	सी.आई.एफ. आयात का मूल्य (एमएफजी)	(a)	C.I.F. Value of Imports (mfg)	शून्य		शून्य	
(बी)	विदेशी मुद्रा में व्यय :	(b)	Expenditure in foreign currency :				
	i) विदेशी दौरे		i) Foreign Tours	3.36		-	
	i) रहने का खर्च		ii) Living Expenses	-		-	
	iii) तकनीकी ज्ञान शुल्क		iii) Technical Know fee	63.39		60.29	
	iv) अन्य		iv) Others	42.47		10.26	
(c)	रॉयल्टी, जानकारी, पेशेवर और परामर्श सेवाओं आदि के लिए विदेशी मुद्रा में कमाई।	(c)	Earnings in Foreign Exchange for Royalty, know-how, professional and consultancy services etc.	3.26		3.19	
(d)	कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स घटकों और उपभोग किए गए भंडार का मूल्य और कुल का प्रतिशत:	(d)	Value of Raw Materials, Spare parts components and stores consumed and percentage of the total :				

				चालू वर्ष 2022-23 Current Year 2022-23		पिछला वर्ष 2021-22 Previous Year 2021-22	
				अमाउंट प्रतिशत ₹/लाख Amount Percentage ₹ /Lakhs	अमाउंट प्रतिशत ₹/लाख Amount Percentage ₹ /Lakhs	अमाउंट प्रतिशत ₹/लाख Amount Percentage ₹ /Lakhs	अमाउंट प्रतिशत ₹/लाख Amount Percentage ₹ /Lakhs
	i) कच्चा माल		i) Raw Materials				
	आयातित		Imported	-	-	-	-
	स्वदेशी		Indigenous	-	-	-	-
	ii) स्टोर, स्पेयर पार्ट्स		ii) Stores, Spare parts				
	आयातित		Imported	-	-	-	-
	स्वदेशी		Indigenous	-	-	-	-

54. पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक:

54. Remuneration of Whole time Directors :

				चालू वर्ष 2022-23	पिछला वर्ष 2021-22
				Current year 2022-23	Previous year 2021-22
				₹/लाख	₹/लाख
				₹/ Lakhs	₹/ Lakhs
1	वेतन	1	Salaries	-	24.02
2	भविष्य निधि अंशदान	2	Provident Fund Contribution	-	2.76
3	अन्य	3	Others	-	4.87
				-	-
	<b>कुल</b>		<b>Total</b>	-	<b>31.65</b>
				=	=

"उपरोक्त राशि में वेतन और भत्ते, भविष्य निधि में योगदान आदि और नकदीकरण योग्य छुट्टियों के लिए वास्तविक भुगतान शामिल हैं।

पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक में ग्रेच्युटी और नकदीकरण योग्य अवकाश के लिए किए गए प्रावधान शामिल नहीं हैं क्योंकि वे समग्र रूप से कंपनी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए गए थे।

इसके अलावा, कार्यात्मक निदेशकों को नियुक्ति पत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार प्रति माह राशि की कटौती पर प्रति वर्ष 12000 किलोमीटर तक निजी उद्देश्य के लिए कंपनी की कार का उपयोग करने की भी अनुमति है।"

55 पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

56 बैलेंस शीट के वित्तीय विवरण 1-55 के नोट्स और लाभ और हानि के विवरण खातों का एक अभिन्न अंग हैं। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े ( ) अन्यथा निर्दिष्ट नकारात्मक राशि दर्शाते हैं।

"The above amount includes salaries & allowances, contribution to provident fund etc. and actual payments towards encashable leaves.

The remuneration of Whole time Directors doesn't include the provision made for Gratuity and encashable leaves as they provided on Actuarial Valuation basis for the Company as a whole.

In addition, Functional Directors are also allowed to use the Company's Car for Private purpose upto 12000 Kms per annum on deduction of amount per month as per terms & conditions of appointment letter."

55 The figures of previous year have been regrouped & re-arranged, wherever necessary to make them comparable with current year figures.

56 Notes to Financial Statement 1-55 of Balance Sheet and Statements of Profit and Loss form an integral part of Accounts. Figures in brackets ( ) indicate negative amount otherwise specified.

निदेशक मंडल के वास्ते

ह/-  
अर्पिता बसु रॉय  
कंपनी सचिव  
M. No.: A28972

ह/-  
नज़हत जे शेख  
निदेशक (वित्त)  
DIN: 07348075

ह/-  
अनिता सी. मेश्राम  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
DIN: 09781436

हमारी रिपोर्ट की अवधि में सम दिनांक संलग्न है  
विनय कुमार एंड कंपनी वास्ते  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
फर्म पंजीकरण संख्या: 000719सी

ह/-  
विनय कुमार अग्रवाल  
पार्टनर  
M. No.: 013795

स्थान: नोएडा  
तिथि: 06.09.2023

For and on behalf of the Board of Directors

sd/-  
Arpita Basu Roy  
Company Secretary

M. No.: A28972

sd/-  
Nazhat J. Shaikh  
Director (Finance)

DIN: 07348075

sd/-  
Aneeta C. Meshram  
Chairperson & Managing

Director  
DIN: 09781436

In term of our report of even date attached  
For Vinay Kumar & Co.  
Chartered Accountants  
Firm Regn No.: 000719C

sd/-  
Vinay Kumar Agrawal  
Partner  
M.No.: 013795

Place: Noida  
Date: 06.09.2023